



मनी लांड्रिंग जांच पर सीबीआई ने नहीं लिखा पत्र : परमेश्वर @ नम्मा बेंगलूरु

Postal Regd.No. HQ/SD/523/2023-25 | सोमवार, 10 जून, 2024 | हैदराबाद और नई दिल्ली से प्रकाशित | epaper.shubhlabdaily.com | संपादक : गोपाल अग्रवाल | पृष्ठ : 14 | * मूल्य-6 रु. | वर्ष-6 | अंक-161

राष्ट्रपति भवन में हुआ भव्य शपथग्रहण समारोह

नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने



नई दिल्ली, 09 जून (एजेंसियां)।

नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और तीन बार लगातार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाई। करीब छह दशक के बाद यह पहली बार हुआ कि कोई नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया।

प्रधानमंत्री के शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति ने राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेन्द्र प्रधान, एचडी कुमारस्वामी, जीतनराम मांझी, राजीव रंजन सिंह, सर्वानंद सोनोवाल और वीरेंद्र कुमार को कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई।

इन चेहरों के अलावा मोदी सरकार में जो नए नेता शामिल किए गए उनमें तेलंगाना के बंडी संजय कुमार और रवनीत सिंह बिट्टू भी शामिल हैं। इस बार सरकार में ज्यादातर नए चेहरे भाजपा के सहयोगी दलों से हैं। टीडीपी के राम मोहन नायडू, चंद्रशेखर पेमासानी, जेडीयू के राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर, शिवसेना के प्रतापराव जाधव के अलावा एलजेपी (रामविलास) के चिराग

पासवान, हम के जीतन राम मांझी, जेडीएस के एच डी कुमारस्वामी, लेकिन भाजपा ने मजबूती से अपनी बात रखते हुए कहा कि वह गठबंधन धर्म निभाएगी, लेकिन सिर झुकाकर सरकार नहीं चलाएगी।

मोदी मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी ली शपथ

मंत्रिमंडल में दिखी एनडीए की संघम-शक्ति

दल (एस) अनुप्रिया पटेल ने भी मंत्रिपरिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली।

इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा पार नहीं किया। भाजपा को कुल 240 सीट पर जीत हासिल हुई। आम चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। टीडीपी ने 16 और जदयू ने 12 सीट पर जीत दर्ज की। इन दोनों दलों के बिना केंद्र में एनडीए सरकार बनाना मुश्किल होता। ऐसे में इन सहयोगी दलों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देना जरूरी था।

एनडीए के ये दोनों सहयोगी दल केंद्र में बड़ी भूमिका चाहते थे।

भाजपा ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति (सीसीएस) से जुड़े चारों मंत्रालयों गृह, रक्षा, वित्त और विदेश अपने पास रखने का फैसला किया। किसी भी सरकार को चलाने के लिए इन मंत्रालयों पर नियंत्रण होना जरूरी है। ये मंत्रालय ही मिलकर सीसीएस (कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी) का गठन करते हैं और बड़े मामलों पर फैसले लेते हैं।

यह समिति देश के सुरक्षा मामलों पर फैसले लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। जबकि गृहमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इसके सदस्य। सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर अंतिम फैसला सीसीएस का ही होगा। साथ ही कानून व व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर भी सीसीएस ही अंतिम

24 राज्यों से 71 मंत्री बनाए 30 कैबिनेट और 36 राज्य मंत्री, 5 को स्वतंत्र प्रभार

शपथ लेने वाले कैबिनेट मंत्रियों में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जगत प्रकाश नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, डॉ. एस जयशंकर, मनोहर लाल, एच डी कुमारस्वामी, पीयूष गोयल, धर्मेन्द्र प्रधान, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह, सर्वानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, राम मोहन नायडू, प्रह्लाद जोशी, जुएल ओरांव, गिरिराज सिंह, अधिनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेन्द्र यादव, गजेन्द्र सिंह शेखावत, अन्नपूर्णा देवी, किरन रिजजू, हरदीप सिंह पुरी, डॉ. मनसुख मांडविया, जी किशन रेड्डी, चिराग पासवान, सी आर पाटिल शामिल हैं।

राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ लेने वालों में राव इंद्रजीत सिंह, जितेन्द्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, प्रतापराव गणपत राव जाधव और जयंत चौधरी शामिल हैं।

राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने वालों में जितिन प्रसाद, श्रीपद यसो नाइक, पंकज चौधरी, कृष्ण पाल गुर्जर, रामदास अटावले, रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, अनुप्रिया पटेल, वी सोमना, चंद्रशेखर पेमासानी, प्रो. एसपी सिंह बघेल, शोभा करंदलाजे, कीर्तिवर्धन सिंह, बनवारी लाल वर्मा, शान्तनु ठाकुर, सुरेश गोपी, एल मुरुगन, अजय टम्टा, बंडी संजय, कमलेश पासवान, भागीरथ चौधरी, सतीश चंद्र दुबे, संजय सेठ, रवनीत सिंह बिट्टू, दुर्गा दास उडके, रक्षा खडसे, सुकांता मजूमदार, सावित्री ठाकुर, तोखन साहू, राज भूषण चौधरी, बी. श्रीनिवास वर्मा, हर्ष मल्होत्रा, नीमूबेन जयंतीभाई बाभानिया, मुस्लीधर मोहोले, जॉर्ज कुरियन, पवित्र मार्योटा शामिल हैं।

फैसला लेता है। सीसीएस आंतरिक या बाहरी सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले मामलों को निपटाती है। साथ ही देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य देशों के साथ समझौते से जुड़े मामलों भी संभालती है। इसके अलावा ये समिति आर्थिक, राजनीतिक और परमाणु उर्जा से जुड़े ऐसे सभी मामलों को निपटाती है, जिनका राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है।

►10

सर्वाफा बाज़ार

(24 कैरेट गोल्ड)

सोना : 74,480/- (प्रति 10 ग्राम)

चाँदी : 91,203/- (प्रति किलोग्राम)

शेयर मार्केट

बीएसई : 74,382.24
+2303.19 +3.20% ↑
एनएसई : 22,620.35
735.85 (3.36%) ↑

कार्टून कॉर्नर



मौसम बेंगलूरु

अधिकतम : 31°
न्यूनतम : 21°

चीन के बधाई संदेश पर भारत ने तीन मूल्यों की याद दिलाई



चीन से आई मोदी को बधाई

नई दिल्ली, 09 जून (एजेंसियां)। नरेंद्र मोदी को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए चीन ने बधाई संदेश भेजा है। इस बधाई संदेश पर भारत ने बीजिंग को तीन मूल्यों परस्पर सम्मान, परस्पर संवेदनशीलता और परस्पर हित की याद दिलाई है। भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की ऐतिहासिक जीत पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चुप्पी साधे रखी, लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय और भारत में चीन के नवनियुक्त राजदूत जू फेइहोंग ने नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी।

चीन के बधाई संदेश पर भारतीय विदेश मंत्री के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, आपसी सम्मान, आपसी हित और आपसी संवेदनशीलता के आधार पर भारत-चीन संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में प्रयास जारी रहेंगे। दरअसल, चीन ने अपने बधाई संदेश में दोनों देशों के बीच स्वस्थ और स्थिर संबंधों की बात कही

थी। उल्लेखनीय है कि पूर्वी लद्दाख में चीन के दुस्साहस के कारण सैन्य गतिरोध बना हुआ है और दोनों देशों के संबंध बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। पश्चिमी क्षेत्र में चार बिंदुओं पर सैन्य वापसी हासिल कर ली गई है, लेकिन 21 दौर की सैन्य और 15 दौर की कूटनीतिक वार्ता के बाद भी देपसांग और डेमचोक क्षेत्रों में यह हासिल नहीं हो पाया है। गतिरोध के बाद से पीएम मोदी और शी जिनपिंग की कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है। पिछले साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और साल 2022 में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान उनके बीच अनौपचारिक बातचीत हुई थी।

चीन के साथ संबंधों को देखते हुए नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में भी चीन से स्वच्छंद कारनामों पर अंकुश लगाने की दिशा में काम करेंगे। ऐसा माना जा रहा है। इसकी झलक उनके शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किए गए पड़ोसी देशों के प्रमुखों से भी लगता है। नरेंद्र मोदी इस कार्यकाल में भी चीन को रोकने की दिशा में अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पड़ोसी और हिंद महासागर क्षेत्र के

►10

शपथ ग्रहण के साथ ही शुरू हुआ मोदी सरकार का काम

अब बड़े और कड़े फैसले का इंतजार

नई दिल्ली, 09 जून (एजेंसियां)

नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और तीन बार लगातार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। करीब छह दशक के बाद यह पहली बार हुआ कि कोई नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना। मोदी लगातार कहते रहे हैं कि उनका तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों वाला होगा। जब उन्हें एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया तब भी उन्होंने ये बातें दोहराईं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल का काम तो सिर्फ ट्रेलर है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार कौन से बड़े और कड़े फैसले ले सकती है, इस बारे में विचार करना जरूरी है। नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटाना, राम मंदिर का निर्माण, नागरिकता अधिनियम कानून का लागू होना बड़े फैसलों के रूप में गिना जाता है। ऐसे में लोगों के मन भी सवाल है कि आखिर इस बार एनडीए सरकार कौन से बड़े और कड़े फैसले ले सकती है? आखिर



एक देश एक चुनाव और यूसीसी पर देश की निगाह

किन क्षेत्रों में बड़े निर्णय हो सकते हैं?

लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में एक देश एक चुनाव का वादा किया है। नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के तमाम बड़े नेता इसे लागू करने की वकालत कर रहे हैं।

दरअसल, नरेंद्र मोदी ने 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर एक देश एक

चुनाव का जिक्र किया था। तब से अब तक कई मौकों पर भाजपा की ओर एक देश एक चुनाव की बात की जाती रही है। एक देश एक चुनाव की बहस 2018 में विधि

►10

स्मृति, अनुराग समेत कई नेताओं को मंत्रिमंडल में नहीं मिली जगह

नई दिल्ली, 09 जून (एजेंसियां)।

प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार शपथ ली, लेकिन पिछली सरकार के कई अहम मंत्रियों को इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। जिनमें अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी भी शामिल हैं।

लोकसभा चुनाव जीतने बाद भी मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में नारायण राणे, अनुराग ठाकुर, पुरुषोत्तम रूपाला



को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया है, जबकि कैबिनेट में जगह नहीं पाने वालों में अर्जुन मुंडा, स्मृति ईरानी, आर के सिंह, महेंद्र नाथ पांडेय का भी नाम है जो चुनाव हार गए हैं।

पिछली सरकार में राज्य मंत्री रहे अधिनी कुमार चौबे, जनरल वी के सिंह, साध्वी निरंजन ज्योति, संजीव बालियान, राजीव चंद्रशेखर, दर्शना जरदोश, वी मुर-लीधरन और मीनाक्षी लेखी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा अजय मिश्रा टेनी, मुभाष सरकार, जॉन बराला और निशीथ प्रमाणिक को भी मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला है।

मालदीव के राष्ट्रपति मो. मुइजु ने कहा

मोदी के शपथ ग्रहण में आना सम्मान का विषय

नई दिल्ली, 09 जून (एजेंसियां)।

मालदीव के राष्ट्रपति मुहम्मद मुइजु भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे शपथग्रहण समारोह में शामिल हुए।

नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार शपथ लेने को मालदीव के राष्ट्रपति मुहम्मद मुइजु ने ऐतिहासिक क्षण करार दिया। उन्होंने कहा, यह दिखाता है कि द्विपक्षीय संबंध सही दिशा में जा रहे हैं। मुहम्मद मुइजु ने कहा कि वो भारत के साथ अपने रिश्तों



को मजबूत कर के भारत-मालदीव रिश्ते को और सकारात्मक दिशा देने के लिए प्रयास करेंगे। इससे पहले मुहम्मद मुइजु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी जीत पर भी शुभकामनाएं दी थीं। 17 नवंबर 2023 को दोबारा सत्ता संभालने के बाद यह पहला मौका था जब मुइजु भारत आए।



व्यवसायिक उन्नति के साथ संस्कारों का ग्रोथ भी जरूरी



ट्रेड फेयर में हुई जमकर खरीददारी

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

दुनिया में सफल व असफल लोगों के अनुपात का सबका अपना मत है, परंतु जिन्होंने भी अपने काम में अगर 20 प्रतिशत भी कोशिश की है तो उनको 80 प्रतिशत सफलता अवश्य मिली है। आज दुनिया में जीतने भी लोग सफल हैं उन्होंने वहीं पर चोट की है जहां पर परिणाम मिलते हैं। यह बात प्रेरक वक्ता हर्षवर्धन जैन ने जीतो बेंगलूरु के जीतो ग्रोथ सम्मिट में धंधे से दिल तक-जीवन मंथन विषय पर बोलते हुए कही। उन्होंने कहा कि जीवन में विकास करने के लिये बहानों के टापू से बाहर आना होगा, जो ताकत हम बहाने बनाते हैं लगाते हैं उस ताकत को काम में लगाना होगा और जीवन में बदलाव का बड़ा रूपांतरण करना होगा। सफलता के सिद्धांत बताते हुए उन्होंने धधकती हुई इच्छा शक्ति, मजबूत अवलोकन, काबिलियत बढ़ाने पर ध्यान, इंद्रियों पर काबू, अपने आप को कठोर बनाने जैसे बिंदुओं पर उदाहरण के साथ प्रकाश डाला। उन्होंने श्रोताओं को व्यक्तिगत मैनेजमेंट व समय के साथ बदलती व्यक्तिगत क्षमताओं और प्रदर्शन को विस्तार से समझाया और कहा कि आगे बढ़ने के लिये अपने जीवन का चार्ज स्वयं को



लेना होगा। दोपहर के सत्र में आध्यात्म गुरु एवं कथावाचक जया किशोरी ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रोताओं को सिसकते संसार-सिमटे परिवार विषय पर व्यक्तव्य दिया। आध्यात्म के बारे में उन्होंने कहा कि आध्यात्म का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना, अपितु उस समय की सोच से एक पायदान ऊपर सोचना आध्यात्म है। परिवार के बारे में उन्होंने कहा कि एक सामान्य सोच रहती है कि पूरा परिवार सूखे में साथ है, जबकि हमारे दुःखों के समय में साथ देने वाला अगर कोई है तो वो सर्फ परिवार ही होता है। उन्होंने कहा कि आज कल अधिकतर माँ-बाप अपने बच्चों को अच्छी सीख देने के लिये उनके समझदार होने की प्रतीक्षा करते हैं और यही भूल हर माँ-बाप करते हैं।

संस्कार बचपन में देने हैं वो समझदार बनायेंगे। उन्होंने कहा कि दुनिया में सिर्फ माँ-बाप ही सबसे ज्यादा निःस्वार्थ प्यार करने वाले होते हैं।

शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि आज की शिक्षा सिर्फ कमाना सिखाती है, इंसान बनना नहीं सिखाती है। उन्होंने कहा कि आज हमारे भावों को बदलने की जरूरत है, मेरा भला हो और मेरे काम से दूसरों का भी भला हो, यह सोच विकसित करनी होगी। उन्होंने कहा कि व्यवसायिक विकास के साथ संस्कारों के ग्रोथ की आवश्यकता है। हर्षवर्धन जैन व जया किशोरी का जीतो की ओर से अभिनन्दन किया गया। कार्यक्रम का संचालन जीतो साउथ महामंत्री दीपक श्रीश्रीमाल ने किया। ग्रोथ सम्मिट में युवा विंग द्वारा नेटवर्किंग पर मनी हाइड्स विषय पर आयोजित प्रतियोगिता में 250 से ज्यादा प्रतिभागियों ने 90 मिनट तक एक अभूतपूर्व नेटवर्किंग गेम का अनुभव किया। युवा विंग अध्यक्ष पिंकेश मेहता के अनुसार प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को बातचीत, समस्या-समाधान, संज्ञानात्मक व समन्वय तथा टीम वर्क सिखाया गया। प्रतियोगिता



ने नेटवर्किंग को एक गेमिफाइड मोड दिया। ट्रेड फेयर के लगातार दूसरे दिन की सफलता से उत्साहित जीतो बेंगलूरु साउथ के अध्यक्ष दिनेश बोहरा ने कहा कि व्यापारियों और पेशेवरों को इस ट्रेड फेयर का दीर्घकालिक लाभ मिलेगा और ग्राहकों को नये उत्पादों को जानने एवं समझने का सुखद अनुभव। जीतो एपेक्स के गणपत चौधरी ने कहा कि बेंगलूरु जीतो जनुपयोगी कार्यों में हमेशा अग्रणी रहा है और भारत भर के जीतो अध्यक्ष बेंगलूरु का अनुसरण करते हैं। जीतो एपेक्स सलाहकार समिति अध्यक्ष तेजराज गुलेच्छा ने कहा कि श्रोताओं एवं आगन्तुकों की भीड़ ग्रोथ सम्मिट व ट्रेड फेयर के सफलता की कहानी बताते हैं।

प्रातःकाल से ही खरीददारों की भीड़ देखी गई

जैन पवेलियन में सैकड़ों आगन्तुकों ने वीआर तकनीक के माध्यम से समृद्ध संस्कृति का अनुभव किया।

रिवार के अवकाश के कारण ट्रेड फेयर में प्रातःकाल से ही खरीददारों की भीड़ देखी गई। पंचकेशरी बड़ेरा ज्वेलर्स के माणकचंद बड़ेरा ने कहा कि ट्रेड फेयर में उनके स्टाल पर आशा के अनुरूप ग्राहकी रही और नये ग्राहक भी संपर्क में आये। उन्होंने खुशी व्यक्त की कि आयोजन से युवाओं में संपर्क बढ़ा। मारवाड़ी जोड़ी की हर्षा बाफना ने जोड़िया बनाना आज की जरूरत है, आज की शिक्षा व सोच को देखते हुए जोड़िया बनाना आसान नहीं रहा। समाज में बन रही परिस्थिति के कारण आज कोई भी रिश्तेदार बीच में नहीं आते हैं और वो काम मारवाड़ी जोड़ी करती है। रियल स्टेट व्यापारी पारसमणि के निदेशक दिनेश गुलेच्छा ने कहा कि वो ट्रेड फेयर का अनुभव कभी नहीं भूलेंगे, यहां हुए व्यापारिक समझौतों से उनका स्टाल लेने का निर्णय सफल हुआ। खबर लिखे जाने तक जीतो ग्रोथ सम्मिट से संबंधित कई आयोजन गतिमान थे।

अपनी प्रतिभा को तलाशें पर शिविर का आयोजन



बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

तेरापंथ महिला मंडल राजराजेश्वरी नगर के तत्वावधान में कन्यामंडल द्वारा आचार्य श्री महाश्रमण जी की विदुषी शिष्या साध्वी उदित यशजी के सानिध्य में अपनी प्रतिभा को तलाशें पर शिविर का आयोजन किया गया। नमस्कार महामंत्र के उच्चारण से कार्यक्रम का शुभारंभ साध्वी उदितयश जी द्वारा किया गया तथा उन्होंने रोचक कहानी द्वारा लाइफ में संतुलन बनाकर चलने की प्रेरणा दी। अध्यक्ष सुमन पटवारी ने सभी का स्वागत किया। साध्वी संगीतयश जी ने अपनी सच्ची प्रतिभा को तलाशें गीत के माध्यम से कार्यक्रम को प्रारंभ किया। तत्पश्चात साध्वी भव्ययश जी ने एक बहुत ही सुंदर चार्ट के माध्यम से कन्याओं को यह समझाया कि लाइफ में कितना टाइम किस चीज में उपयोग करना चाहिए तथा हमें दूसरों के विचारों को समझना चाहिए। साध्वी संगीतयश जी ने कन्याओं को यह भी समझाया कि हमें कमाई बिंदु पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या सीखने के बिंदु पर। उन्होंने बताया कि हमें पहले बड़े लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। साध्वी श्री शिक्षाप्रभा जी ने खुद को जानने और समझने की प्रेरणा दी। सभी कन्याओं को सामायिक, डिजिटल त्याग, 24 तीर्थंकर प्रतियोगिता, डिबेट आदि के माध्यम से धार्मिक गतिविधियों से जुड़ने की प्रेरणा दी गई। शिविर में कुल 47 कन्याओं ने भाग लिया तथा महिलामंडल सहित 70 लोगों की उपस्थिति रही। डिबेट प्रतियोगिता की जज के रूप में प्रतिभा नाहर एवं प्रतिष्ठा प्रियदर्शिनी जैन ने अपना निर्णय दिया, जिसमें, प्रथम स्थान पर विजयनगर कन्या मंडल, द्वितीय स्थान पर यशवंतपुर कन्या मंडल तथा तृतीय स्थान पर आरआर नगर कन्या मंडल रहा। कार्यक्रम के अंत में कन्याओं ने शिविर के अपने अनुभव को साझा किया। कन्या मंडल प्रभारी पूरम दुगड़ ने कुशल संचालन एवं सह-प्रभारी निशा छाजेड़ ने सभी का आभार ज्ञापित किया। कार्यक्रम की संयोजिका दिया छाजेड़ एवं सह-संयोजिका तुमि छाजेड़ के कुशल नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ।



बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ ट्रस्ट विजय नगर द्वारा जैन स्थानक भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में युवाओं ने उत्साह से रक्तदान किया। रक्त का संग्रहण बेंगलूरु ब्लड बैंक ने किया। महेंद्र मुणोत ने रक्तदाताओं का उत्साह वर्धन करते हुए कहा रक्तदान जीवनदान, आपके द्वारा दान किया हुआ एक यूनिट रक्त तीन जिंदगियां बचा सकता है। संघ के पदाधिकारियों ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र वितरित किए।

अमृत धारा के तहत शीतल पेय जल की व्यवस्था

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

वर्तमान में मारवाड़ी युवा मंच के राष्ट्रीय कार्यक्रम अमृत धारा - हमारी धरोहर हमारी पहचान के अंतर्गत बेंगलूरु शाखा की 27 अमृत धारा बेंगलूरु शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रही हैं।

इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए शनिवार को शाखा ने 11 अतिरिक्त अमृत धारा (स्टैंड और पानी के मटकों के साथ शीतल पेय जल) की शुरुआत की। अब मारवाड़ी युवा मंच बेंगलूरु शाखा के अंतर्गत अमृत धारा शीतल पेयजल की कुल संख्या 38 हो गई है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष



भी टीएनटी रूफिंग ने 11 पानी के स्टैंड उपलब्ध कराए। जिसकी सराहना समाज के हर वर्ग ने की। इस कार्यक्रम के दौरान शाखा के अध्यक्ष स्नेह कुमार जाजू, सचिव शुभम लोहिया, कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल, कर्नाटक प्रांत के महामंत्री मोहित शर्मा एवं शाखा के सदस्य सुमित बाजोरिया, विनोद गर्ग, विवेक खंडेलवाल,

सुशील सैनी, एकता खंडेलवाल, सविता गर्ग एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे। शाखा के पूर्व अध्यक्ष अंकित मोदी ने इस अवसर पर कार्यकारिणी समिति के सभी सदस्यों को बधाई दी एवं मानव हित के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आकर इस कार्यक्रम को और जोर-शोर से आगे बढ़ाने की अपील की।

श्रमण महावीर जीवन दर्शन प्रतियोगिता का आयोजन

हासन/शुभ लाभ ब्यूरो।

हासन तेरापंथ सभा भवन में आचार्य श्री महाश्रमण जी के सुशिष्य मुनि मोहजितकुमार जी के सानिध्य में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण वर्ष के अवसर पर श्रमण महावीर जीवन दर्शन प्रतियोगिता का आयोजन मलनाड क्षेत्रीय तेरापंथ समिति कर्नाटक द्वारा किया गया।

प्रतियोगिता लोकार्पण समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुनि मोहजित कुमार जी ने भगवान महावीर के आदर्शों की वर्तमान जीवन में महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्य मुनि श्री भव्या कुमार जी ने प्रतियोगिता के विषय में जानकारी दी। मुनि ज्येश



कुमार जी ने भगवान महावीर के मानव से भगवान बनने के सफर की भावपूर्ण प्रस्तुति दी। मलनाड समिति के अध्यक्ष महावीर

भंसाली ने सभी को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के साथ कहा कि समिति की तरफ जीतने वाले प्रतियोगी को आकर्षक

उपहार दिए जायेंगे। इस प्रतियोगिता के लिए चार संयोजिकाएं नियुक्ति की गईं। मलनाड के लगभग 15 क्षेत्र के सभी पदाधिकारी एवं

सदस्य उपस्थित हुए। हासन सभा के अध्यक्ष सुरेंद्र तातेड ने सभी का स्वागत किया।

मंत्री सुरेश कोठरी ने आभार व्यक्त किया। मलनाड समिति के मंत्री दलीचंद भटवेरा ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर हासन तेरापंथ युवक परिषद का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ।

अध्यक्ष नितेश सुराणा को पूर्व अध्यक्ष गौरव गुलगुलिया ने शपथ दिलाई। उसके पश्चात नितेश सुराणा ने अपनी नई टीम में मंत्री के रूप में मनीष तातेड, खजांची नरेश गादिश्या एवं सभी बोर्ड तथा कार्यकारिणी टीम को शपथ दिलाई। कार्यक्रम का सुंदर संचालन महावीर भंसाली ने किया।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने करोपदी मस्जिद के सामने जय श्री राम, जय मोदी के लगाए नारे



बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

सोशल मीडिया पर कथित तौर पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं को हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में दक्षिण कन्नड़ निर्वाचन क्षेत्र के लिए कैप्टन बृजेश चौटा की जीत का जश्न मनाते हुए भड़काऊ तरीके से जय श्री राम और जय मोदी के नारे लगाते हुए दिखाया गया है।

इस कृत्य से स्थानीय समुदाय में काफी नाराजगी है। करोपदी गांव के भाजपा कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार कैप्टन बृजेश चौटा की जीत का जश्न मना रहे थे। वीडियो में कार्यकर्ताओं को करोपदी मस्जिद के सामने नाचते और नारे लगाते हुए दिखाया गया है, जो तेजी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर

फैल गया है। नेटिजन्स ने सवाल उठाया है कि पुलिस ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर मामला क्यों दर्ज नहीं किया, जबकि उन्होंने मेंगलूरु के कंकनाडी में एक मस्जिद के पास सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए ऐसा किया था। पुलिस की कार्रवाई में इस कथित असंगति ने जनता के बीच और बहस और चिंता को जन्म दिया है।



बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। मागडी कस्बे के सरकारी विद्यालय में बच्चों में शिक्षण सामग्री वितरित किया गया। मुख्य अतिथि महेंद्र मुणोत ने कहा बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं। हमारी यह कोशिश रहनी चाहिए कि कोई भी बच्चा प्राथमिक शिक्षा से वंचित न रहे।



बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। रोटी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3191 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने शनिवार शाम को रोटी कब्बन पार्क क्लब का आधिकारिक दौरा किया। रोटी कब्बन पार्क क्लब के लिए यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि गवर्नर के क्लब के आधिकारिक दौरों में सामुदायिक परिोजनाओं का प्रदर्शन किया जाता है। रोटी कब्बन पार्क के अध्यक्ष भास्कर, सचिव किरण, जिला सचिव गुरुनागेश ने मंच साझा किया।



मनी लांड्रिंग जांच पर सीबीआई ने नहीं लिखा पत्र : परमेश्वर

भाजपा के कहने पर इस्तीफा नहीं दे सकते

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने कहा कि अनुसूचित जनजाति विकास निगम के कारनामों की जांच कर रहे सीबीआई अधिकारियों ने अब तक राज्य सरकार को आधिकारिक पत्र नहीं लिखा है। लेकिन सहपाठी ने अधिकारियों से जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। शहर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा के कहने पर मंत्री और मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे सकते। एक जांच पहले से ही चल रही है। एसआईटी और सीबीआई को समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय सीमा तय करना उचित नहीं है। एसआईटी अधिकारियों ने कहा कि बैठक मंत्री शरणप्रकाश पाटिल के कार्यालय में हुई और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी। बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई अधिकारी पहले ही जांच शुरू कर चुके हैं। सरकारी



विभागों ने अब तक जांच के लिए औपचारिक पत्र नहीं लिखा है। खबर है कि बैचमेंट ने अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि अगर सीबीआई अवैध तरीके से कोई पत्र लिखती है तो सरकार उसकी जांच कराएगी। लोकसभा चुनाव में मेरे सहित 17 मंत्री निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों को वोटों में झटका लगा।

इस संबंध में समीक्षा एवं आत्ममंथन किया जाएगा। हम हाईकमान के किसी भी सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह

एआईसीसी के निर्देश का पालन करेंगे। कांग्रेस में कोई अंतर्कलह नहीं है। विचारों में मतभेद स्वाभाविक है। हम मौके-मौके पर अपने विचार रखेंगे। आपको किसी और की बात से सहमत होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कोई आपसी लड़ाई नहीं है। कैबिनेट की बैठक होती है जहां मंत्री अपने विचार व्यक्त करते हैं। पार्टी में चर्चा के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति, एक समन्वय समिति या पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल की आवश्यकता

होती है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि पार्टी अध्यक्ष इस संबंध में कार्रवाई करेंगे। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभालने पर बधाई देना चाहता हूं। उन्हें आने वाले दिनों में जनता के नजरिये से क्या कदम उठाना है इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। पिछले दस सालों में जनता के हक में कोई कानून नहीं बना। उन्होंने इस संबंध में अभी से विचार करने का आह्वान किया। राज्य को और मंत्री पद मिले। ये भूतपूर्व मंत्री राज्य के लिए किसी काम के नहीं हैं। परमेश्वर ने उम्मीद जताई कि जिन्हें मौका मिलेगा वे राज्य की ओर से केंद्र में आवाज उठाएंगे।

अवैध हस्तांतरण के मामले से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। एक दिन पहले ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरणप्रकाश पाटिल ने स्पष्ट किया था कि वाल्मिकी अनुसूचित जनजाति के धन के अवैध हस्तांतरण के मामले से मेरा

कोई लेना-देना नहीं है, मैं आर-पी प्रमाण पत्र में उल्लिखित दिन पर कार्यालय नहीं गया था। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच में आरोपियों ने एक सर्टिफिकेट जमा किया है। मैंने जो पढ़ा उसके अनुसार मेरी मुलाकात मंत्री के कार्यालय में एक व्यक्ति से हुई। इस संदर्भ में वहां के दृश्यों को संरक्षित करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह नहीं कहा कि बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री मौजूद थे। सर्टिफिकेट के आधार पर कोर्ट जांच का निर्देश दे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं 24 तारीख को मंत्री के कार्यालय नहीं गया। तब आचार संहिता लागू थी। विकास सौधा स्थित उनका कार्यालय सरकारी संपत्ति है। वहां बहुत सारे लोग आते, बैठते और जाते हैं। जब मैं वहां नहीं था तब भी कई विधायक आते थे और बैठक बात करते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका हमसे कोई लेना-देना नहीं है।

सिद्धरामैया ने शिवकुमार के भाई की हार सुनिश्चित की: भाजपा विधायक

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। भाजपा विधायक सुरेश गोड़ा ने शनिवार शाम को दावा किया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनकी टीम ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के भाई डी के सुरेश की बेंगलूरु ग्रामीण में भाजपा उम्मीदवार सी एन मंजूनाथ के खिलाफ हार सुनिश्चित की।



गोड़ा ने कहा मैंने चेतावनी दी थी कि मंत्री सतीश जारकीहोली, जी परमेश्वर, के पुत्र राजन्ना और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया डी के सुरेश की हार सुनिश्चित करने के लिए मिलकर रणनीति बनाएंगे। यह

सही साबित हुआ क्योंकि सुरेश 2 लाख से अधिक वोटों से चुनाव हार गए। उन्होंने कहा कि डी के सुरेश की हार उपमुख्यमंत्री शिवकुमार को उनके नैतिक साहस को कम करने से रोकने की साजिश का हिस्सा थी। गोड़ा ने कहा शिवकुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और मौजूदा सरकार नहीं बचेगी। कांग्रेस के भीतर ध्रुवीकरण की राजनीति यहीं से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि बेलगावी जिले में कांग्रेस में अंदरूनी कलह शुरू हो चुकी है और बेंगलूरु ग्रामीण में कांग्रेस की हार के साथ ही यहां भी अंदरूनी कलह सामने आएगी। उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार जल्द ही गिरने वाली है।

एआईडीएसओ आज करेगा विरोध प्रदर्शन

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। अल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (एआईडीएसओ) ने सोमवार को बेंगलूरु के फ्रीडम पार्क में नीट-2024 के नतीजों में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन की योजना बनाई है। एआईडीएसओ के

राज्य सचिव अजय कामथ ने एक बयान में कहा यह आश्चर्यजनक है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने के लिए स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन ग्रेस मार्क्स देने का आधार पूरी तरह से अस्पष्ट और मनमाना है। इसके अलावा, इस वर्ष के लिए

प्रकाशित प्रॉस्पेक्टस में ग्रेस मार्क्स के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इस बीच, विभिन्न कन्नड़ संगठनों ने सोशल मीडिया पर नीट को वापस लेने और केंद्र से राज्यों को मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का अधिकार वापस देने की मांग की है।

भारी बारिश से मंगलूरु उड़पी प्रभावित

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। कर्नाटक के तटीय जिलों में मानसून की बारिश तेज हो गई है। शनिवार को दक्षिण कन्नड़, उड़पी और कासरगोड जिलों में लगातार बारिश हुई, जिसके कई दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मंगलूरु में भारी बारिश के कारण कोट्टारा, कोट्टारा चौकी और बेजई में कृत्रिम बाढ़ आ गई, जिससे यातायात बाधित हुआ। सुब्रमण्य, सुल्लिया, ऐनेकिडु, कोल्लामोयु, जलसूर, कडाबा, बेल्लारे, बेल्लंगडी, उज्जिरे, धर्मस्थल, चार्मडी, वेसूर, कोक्कडा, नेल्वाडी, पुनूरु, कुम्ब्रा, उप्पिन्गडी, इलाथिला, पेरेने, कल्लेरी, सूरतकल, मुल्की, उल्लाल,



कन्याना, विट्टल, मंजेश्वर, बयारु, बंटवाल, बीसी रोड और कल्लडका में भी काफी बारिश हुई। कुंडापुर और बिंदूर तालुकों में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। गुलाबी शेड्री नामक व्यक्ति के घर पर बिजली गिरी, जिससे सभी बिजली के उपकरण जल गए। कुंडापुर की मुख्य सड़क पर एवीएन बिल्डिंग

के पास एक बड़ा पेड़ उखड़कर एक ऑटोरिक्षा पर गिर गया। टेककट्टे के पास होम्बाडी ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर एक और पेड़ चलते ऑटोरिक्षा पर गिर गया, जिससे ड्राइवर शंकरा को मामूली चोट आई और वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसी प्रकार से जिले के अन्य हिस्सों को भारी बारिश ने प्रभावित किया।

जेडीएस के पूर्व मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों ने शपथ ग्रहण में लिया हिस्सा


बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। जेडीएस पार्टी के पूर्व मंत्रियों, विधायकों और पूर्व विधायकों सहित पार्टी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ। जेडीएस कोर कमिटी के अध्यक्ष जीटी देवेगौड़ा, विधायक जीटी हरीश गोड़ा, स्वरूप प्रकाश, बेंगलूरु महानगर जेडीएस अध्यक्ष एचएम रमेश गोड़ा, विधान परिषद के लिए नवनिर्वाचित विवेकानंद और टीएन जावरु गौड़ा राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुए शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। पूर्व विधायक अश्विन, प्रियवदनम महादेव समेत पार्टी के कई नेता पहले ही दिल्ली पहुंच चुके थे।



जेडीएस नेताओं ने सुबह विभिन्न उड़ानों से बेंगलूरु से दिल्ली की यात्रा की। लोकसभा और विधान परिषद में जीत के मूड में चल रहे जद (एस) के नेता और कार्यकर्ता

आवास को सजाया गया था और उत्सव का माहौल था। शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने के लिए राज्य से गए पार्टी नेता भी देवेगौड़ा के आवास पर पहुंचे और आवास और प्रांगण को अनोखे तरीके से सजाया गया। देवेगौड़ा के प्रधानमंत्री बनने के बाद गोड़ा परिवार और जेडीएस से कोई भी केंद्रीय मंत्री नहीं बना। जब कुमारस्वामी पहली बार मुख्यमंत्री बने तब भी वह जेडीएस-भाजपा गठबंधन सरकार में थे। अब इसी तरह वह भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में एनडीए गठबंधन में मंत्री बन रहे हैं। ऐसे में जेडीएस खेमे में जश्र का माहौल है और पार्टी नेता और कार्यकर्ता उत्साह की लहर में तैर रहे हैं।

मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में देवेगौड़ा नहीं हुए शामिल



बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग नहीं लिया। मौजूदा लोकसभा चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद 7 जून की सुबह दिल्ली आने वाले गोड़ा ने कुछ कारणों से इसे स्थगित कर दिया। एनडीए गठबंधन की बैठक में जेडीएस का प्रतिनिधित्व पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के गठन का समर्थन किया था। कुमारस्वामी का मोदी कैबिनेट में शामिल होना तय है। हालांकि, गोड़ा शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं ले रहे हैं।

विधायक ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का किया उद्घाटन

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। स्थानीय विधायक के गोपालैय्या ने रविवार को केएम डब्ल्यूए विद्यानिकेतन और महालक्ष्मी लेआउट विधानसभा क्षेत्र के पीयू कॉलेज, ससगिरि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, लायंस क्लब ऑफ बेंगलूरु सेनेटरी, स्पंदना पारशा अस्पताल यशवंतपुर, केएलए डेंटल कॉलेज के सहयोग से आयोजित एक मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मनोज कुमार, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता गणेश, वेंकटेश मूर्ति, सुरेश केएसआर गोरपडे, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, बच्चे एवं अभिभावक मौजूद थे।



बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। सेवानिवृत्त न्यायाधीश एच.एन. नागमोहनदास को कन्नड़ शक्ति केंद्र कोडुमाडुवा नलवाडी कृष्णराज वाडियार पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुरस्कार में 25 हजार नकद, कांस्य पदक, पुरस्कार प्रमाण पत्र शामिल हैं। न्यायमूर्ति डॉ. शिवराज पाटिल सोमवार शाम रवीन्द्र कलाक्षेत्र के नयना हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में न्यायमूर्ति नागमोहनदास को पुरस्कार प्रदान करेंगे। कन्नड़ जनशक्ति केंद्र के अध्यक्ष सीके रामेगौड़ा ने कहा कि कासापा के पूर्व कोषाध्यक्ष पी. मल्लिकार्जुनप्पा और अन्य गणमान्य व्यक्ति बेंगलूरु विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉ. राजप्पा दलवाई की अध्यक्षता में होने वाले समारोह में भाग लेंगे।

कर्नाटक में घरेलू सौर ऊर्जा कार्यक्रम के लिए 10,000 आवेदन हुए प्राप्त

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। राज्य में शुरू की गई प्रधानमंत्री-सूर्य मुफ्त बिजली योजना के लिए कर्नाटक में दस हजार घरों ने पंजीकरण कराया है। बेस्कॉम कॉर्पोरेट कार्यालय में सूर्य-रथ यात्रा के शुभारंभ पर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा विभाग), गौरव गुप्ता ने कहा कि योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए, सरकार ने नवीन अक्षय ऊर्जा मंत्रालय के साथ साझेदारी में, योजना को क्रियान्वित करने



के लिए 229 निजी विक्रेताओं को पंजीकृत किया है। उन्होंने कहा हमारा उद्देश्य पूरे भारत में घरों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए

इस योजना को बढ़ावा देना है, जिससे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर हमारी निर्भरता कम हो और हमारे राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान हो। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस योजना का उद्देश्य देश भर में 10 मिलियन घरों को मासिक 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है।

गारंटी योजनाओं ने लोकसभा चुनावों में हमारी मदद नहीं की: कांग्रेस विधायक

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। कर्नाटक कांग्रेस विधायक एच सी बालकृष्ण ने कहा कि गारंटी योजनाओं ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में पार्टी को वोट हासिल करने में मदद नहीं की है। बालकृष्ण ने मीडियाकर्मीयों से कहा हमारी हार के कई कारण हैं। गारंटी योजनाओं ने चुनावों में हमारी बहुत मदद नहीं की है। लोगों ने फैसला किया है कि हमारी गारंटी की जरूरत नहीं है। मैं यह तय करने की स्थिति में नहीं हूँ कि गारंटी जारी



रखूं या बंद करूँ। उन्होंने कहा कि गारंटी योजनाओं को जारी रखना है या नहीं, इस बारे में कैबिनेट फैसला करेगी। उन्होंने कहा बेंगलूरु ग्रामीण में लोगों ने नए चेहरे को देखते हुए भाजपा को वोट दिया। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं को भी हार का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को भी मतगणना के दिन पहले कुछ राउंड में झटका लगा है। उपमुख्यमंत्री शिवकुमार ने विधानसभा चुनाव में

हमारी जीत सुनिश्चित की। हालांकि, हम उनके भाई को लोकसभा चुनाव में जिताने में विफल रहे। इस बीच, रामनगर के कांग्रेस विधायक इकबाल हुसैन ने कहा कि महिला मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में पार्टी का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा हमें बेंगलूरु ग्रामीण में हार की उम्मीद नहीं थी। मतदाताओं को कुछ महानों में ही इसका एहसास होगा। कांग्रेस कर्नाटक की कुल 28 लोकसभा सीटों में से केवल नौ सीटें ही जीत पाईं।

जीतनराम मांझी ने बंधुआ मजदूर से केन्द्रीय मंत्री बनने का सफर किया तय

पटना, 09 जून (एजंसिया)। सात वर्ष की उम्र में जमींदार के घर बंधुआ मजदूर के रूप में पहली नौकरी की शुरुआत करने वाले जीतन राम मांझी ने अपने बुलंद हौसलों और काम के प्रति समर्पण की भावना से राजनीति के क्षेत्र में विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और अब केन्द्रीय मंत्री बनने का स्वर्णिम सफर तय किया।

जीतन राम मांझी का जन्म 06 अक्टूबर 1944 को गया जिले के खिजरसराय प्रखंड के महकार गांव में हुआ। उनके पिता रामजीत राम मांझी खेतिहर मजदूर थे। मांझी बचपन में मां सुकरी देवी और पिता रामजीत मांझी के साथ गांव के ही एक जमींदार के घर में चाकरी करते थे। जीतनराम मांझी जब सात वर्ष के हुये तो जमींदार के घर बंधुआ मजदूरी करने लगे। जीतनराम मांझी जब 11 साल के हो गए, तो उनके पिता को अपने बच्चे को पढ़ाने-लिखाने की चिंता हुई, लेकिन मांझी के पिता के मालिक इसके सख्त खिलाफ थे। मांझी के पिता ने मालिक को सुझाव दिया कि वह चाहते हैं कि उनका बेटा पढ़ाई करे। यदि वह स्कूल जा सके तो उसकी स्थिति में सुधार होगा मालिक ने कहा, पढ़ा के अपने बेटवा के का कलेक्टर बनें। पढ़ावे के का जरूरत है। लेकिन जीतन के पिता जी के दिमाग में ये बात थी कि बेटा को पढ़ाना है। एक बार, जब जमींदार के बेटे ने होमवर्क पूरा



नहीं किया तो शिक्षक क्रोधित हो गए लेकिन मांझी ने सौंपे गए कार्य और उत्तर को दोहराया। पढ़ाई में रुचि देखकर उन्हें जमींदार के बच्चों ने फूटी स्लैट दे दी, जिससे वह लिख पढ़ सके। मांझी स्लैट के टूटे हिस्से पर पढ़ाई लिखकर याद करते थे। मांझी के मन में पढ़ने की ललक थी और अपने पिता तथा जमींदार के बच्चों को पढ़ाने वाले एक शिक्षक से प्रोत्साहन मिलने पर उन्होंने बिना स्कूल जाए सातवीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त कर ली। वर्ष 1962 में उच्च विद्यालय में शिक्षा पूरी करने के बाद श्री मांझी ने वर्ष 1967 में गया कॉलेज से इतिहास विषय से स्नातक की डिग्री हासिल की। वह अपना खर्च चलाने के लिए अपनी ही क्लास की लड़कियों को ट्यूशन दिया करते थे। लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाकर उस जमाने में मांझी 75 रुपये महीना कमाने लगे थे।

वर्ष 1980 में जीतन राम मांझी ने इंदिरा कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया और आंदोलन का हिस्सा बन गए वह 'आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को बुलाएंगे' के नारे बुलंद करने लगे। वर्ष 1980 में हुए विधानसभा चुनाव में फतेहपुर सुरक्षित सीट से मांझी ने जीत दर्ज कर ली। इसके बाद मांझी का राजनीतिक सफरनामा लगातार बढ़ता चला गया। श्री मांझी 1983 से बिहार में चंद्रशेखर सिंह सरकार में राज्य मंत्री बने। इसके बाद श्री मांझी 1985 में फिर विधायक बने। इसी दौरान एक बार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी रहे। वर्ष 1991 में श्री मांझी ने पहली बार गया (सु) से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 1995 के विधानसभा चुनाव में भी जीतन राम मांझी फतेहपुर सीट से चुनाव हार गये। जीतनराम मांझी ने कांग्रेस का हाथ छोड़ जनता दल से नाता जोड़ लिया। धीरे-धीरे लालू से उनकी नजदीकी बढ़ने लगी। वर्ष 1996 के उपचुनाव में बाराचढ़ी विधानसभा सीट से जीतन राम मांझी चुनाव जीत गये। वर्ष 2000 के विधानसभा चुनाव में भी मांझी राजद के टिकट पर बोधगया (सु) के विधायक बने। वर्ष 2005 अक्टूबर में मांझी राजद के टिकट पर बाराचढ़ी के विधायक बने। वर्ष 2005 में राजग की सरकार में मांझी को मंत्री बनाया गया।

लेकिन राष्ट्रीय जनता दल (राजद)

कार्यकाल में एक भ्रष्टाचार के मामले की वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा। वर्ष 2008 में नीतीश कुमार ने श्री मांझी को फिर मंत्री बनाया। वर्ष 2010 के विधान सभा चुनाव में जीतनराम मांझी जहानाबाद के मखदूमपुर सीट से जदयू के टिकट पर लड़े और विजयी हुये। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में श्री मांझी ने गया (सु) जदयू के टिकट से चुनाव लड़ा लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2014 आम चुनाव में जदयू की करारी हार के बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार अपने महादलित जनाधार को मजबूत करना चाहते थे, इसलिए महादलित समुदाय से एक नेता की तलाश थी, उनकी तलाश जीतन राम मांझी पर आकर खत्म हुई। जीतनराम मांझी मई 2014 से फरवरी 2015 तक नौ महीने बिहार के मुख्यमंत्री रहे। जनता दल यूनाईटेड (जदयू) ने बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने और नीतीश कुमार के लिए रास्ता बनाने से इंकार करने वाले जीतन राम मांझी पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। श्री मांझी के विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने की नौबत आई तो उन्होंने बहुमत नहीं देख 20 फरवरी 2015 को बिहार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया।

झारखंड के संजय सेठ केंद्र में पहली बार मंत्री बने

रांची, 09 जून (एजंसिया)। झारखंड में रांची लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार बड़ी जीत हासिल करने वाले संजय सेठ पहली बार केंद्र में राज्य मंत्री बने हैं।

श्री सेठ छात्र जीवन में ही आरएसएस से जुड़े और आप-ताकाल के दौरान उनकी कई बार गिरफ्तारी हुई। संजय सेठ पिछले 40 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत हैं और बीजेपी के हर छोटे-बड़े कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता देखी है। हालांकि बाबूलाल मरांडी के बीजेपी छोड़ने के बाद कुछ महीनों के लिए संजय सेठ पार्टी छोड़ कर झारखंड विकास मोर्चा में चले गए थे लेकिन वापस आने के बाद बीजेपी में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई।

श्री सेठ 1992 में लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के दिन ही गिरफ्तार हुए और 25 दिनों तक रांची जेल में रहे। इसके पहले आपताकाल और विद्यार्थी जीवन में आंदोलन में कई बार गिरफ्तारियां हुईं। विदेशी गैंगू आयात के समय जेल भरो आंदोलन में शामिल हुए। वर्ष 2013 के जनवरी महीने में पार्टी के कार्यक्रम के तहत 7 दिन बिसा मुंडा केंद्रीय कारा में रहे। इसके अलावा रांची, हजारीबाग,



कोडरम, लोहरागा, पलामू और दुमका के लोकसभा और विधानसभा प्रभारी के रूप में भी उन्होंने काम किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रादेशिक कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी में 2 बार कार सेवा, एकता यात्रा, वोट क्लब रैली, मुंबई अधिवेशन, इलाहाबाद में मोर्चा सम्मेलन, रांची-पटना में विधानसभा घेरो आंदोलन सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल हुए।

श्री सेठ छात्र जीवन में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े गए। एक स्वयंसेवक के रूप में वो लंबे समय से संघ के शाखा में जाते रहे। इस बीच 1980 में युवा शक्ति एक हो के केंद्रीय अध्यक्ष बने। इस दौरान वे रांची मोटर डीलर्स एसोसिएशन के सचिव बने। फिर 1993 में रांची मोटर डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। 1996 में छोटानागपुर चैम्बर

ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सचिव रहे। 1999 में वरीय उपाध्यक्ष और 2000 में अध्यक्ष बने। 2003 में वो लायन्स क्लब ऑफ रांची कैपिटल के अध्यक्ष बने। जबकि 2016 से 19 तक झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1976 में कानपुर छात्र संघ के चुनाव में डीएवी कॉलेज से आंदोलन सहित अन्य कार्यक्रमों में शामिल हुए। 1980 में भारतीय जनता युवा मोर्चा रांची नगर के महामंत्री बने। 1981 में भाजयुमो के रांची नगर अध्यक्ष, 1986 में रांची भाजपा के वरीय उपाध्यक्ष, संगठन महामंत्री, 1990 में बीजेपी रांची अध्यक्ष, 1997 में भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री, 2001 में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, 2003 में रांची महानगर के अध्यक्ष, 2009 में प्रदेश प्रवक्ता और 2013 में नमो मंत्र झारखंड के संयोजक रहे।

स्थिर समझे जाने वृश्चिक लग्न में मोदी ने ली सातवीं बार शपथ



नई दिल्ली/देहरादून, 09 जून (एजंसिया)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आध्यात्मिक अभिरुचि किसी से छिपी नहीं है तथा वह ग्रह, नक्षत्रों की चाल और उनके परिणामों में भी खासी रुचि रखते देखे हैं और यही वजह है कि उन्होंने वर्ष 2019 की तरह इस बार भी रविवार को वृश्चिक लग्न और पुनर्वसु नक्षत्र में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।

ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार, वृश्चिक लग्न को ज्योतिष शास्त्र में स्थिर लग्न बताया गया है। इस लग्न में शपथ लेना कार्य में स्थायित्व और स्थिरता देने का काम करता है। साथ ही वृश्चिक लग्न को गुप्त रूप से काम करने वाला भी माना जाता है। ऐसे में सभी तथ्यों को ध्यान में रख, श्री मोदी ने रविवार 9 जून को शपथ ग्रहण के लिए शाम 07 बजकर, 15 मिनट के बाद का समय चुना।

ज्योतिष शास्त्र में चौघड़िया का भी बहुत महत्व है। आज शाम 5 बजकर, 34 मिनट से 7 बजकर 18 मिनट तक उद्रेग चौघड़िया था। इस मुहूर्त में शुभ कार्य करने पर बेचैनी और परेशानी बनी रहती है। इसलिए 7 बजकर 18 मिनट पर उद्रेग चौघड़िया के बीच जाने पर प्रदोष काल में शुभ चौघड़िया शुरु होने पर प्रधानमंत्री ने तीसरी बार अपने पद की शपथ ग्रहण की।

ऐसा पहली बार हो रहा है कि उन्होंने चुनाव परिणाम आने के महज 5 दिनों बाद शपथ ग्रहण की। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने तक चुनाव परिणाम आने के बाद, 6 से 10 दिनों के भीतर शपथ ली। जबकि आज तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उन्होंने चुनाव परिणाम आने के महज पांच दिनों में पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की।

राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं जितिन प्रसाद



लखनऊ, 09 जून (एजंसिया)।

नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में केंद्रीय राज्य मंत्री की शपथ लेने वाले जितिन प्रसाद के लिये राजनीति उन्हें विरासत के रूप में मिली है।

उनके पिता जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने चार बार सांसद रहने के साथ-साथ दो प्रधानमंत्री- राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के राजनीतिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। श्री प्रसाद ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2001 में भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव के रूप में की थी। तीन साल बाद उन्होंने 2004 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में धौरहरा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और संसद के लिए चुने गए। इसके बाद उन्होंने यूपीए सरकार में जूनियर मंत्री के रूप में कार्य किया।

शीर्ष नेतृत्व से मतभेदों के बाद 50 वर्षीय नेता ने 2021 में कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। उन्हें तुरंत योगी आदित्यनाथ सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों के बाद, उन्हें फिर से लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री नियुक्त किया गया। 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने उन्हें पीलीभीत सीट से मैदान में उतारा, जहां उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भगवत सरन गंगवार को हराया।

राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं राव इंद्रजीत सिंह



चंडीगढ़, 09 जून (एजंसिया)।

हरियाणा के गुडगांव संसदीय क्षेत्र से फिल्म अभिनेता राज बब्बर को हराने वाले राज इंद्रजीत सिंह, जिन्होंने रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तीसरी सरकार में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में शपथ ली, राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं और विधायक, सांसद, हरियाणा से लेकर केंद्र में मंत्री रहे हैं।

रेवाड़ी में 1951 में जन्मे श्री सिंह महाराज राव बिरेंद्र सिंह के पुत्र हैं, जो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1977 से वह चार बार विधायक चुने गये और 1982-87 में राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रहे। वर्ष 1998 से छह बार सांसद रहे श्री सिंह दो बार महेंद्रगढ़ से और उसके बाद पन बने संसदीय क्षेत्र गुडगांव से चार बार चुने गए हैं। वर्ष 2013 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आये श्री सिंह कांग्रेस में रहते पर्यावरण, वन, चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, विदेश राज्य मंत्री और रक्षा उत्पादन मंत्री रह चुके हैं। वर्ष 2019 में मोदी सरकार में उन्हें राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी बनाया गया।

वर्ष 2019, जब भाजपा प्रदेश की सभी 10 सीटें जीती थीं, भाजपा को 2024 के चुनाव में काफी मशकत करनी पड़ी और पार्टी पांच सीटें ही बचा पाई। गुडगांव से भी शुरुआती रुझानों में श्री सिंह पीछे चल रहे थे लेकिन बाद के राउंड की गणना में वापसी करते हुए उन्होंने राज बब्बर को 75 हजार मतों से हरा दिया।

भूपेन्द्र यादव पहली बार लोकसभा सदस्य बनते ही बने मंत्री



नई दिल्ली, 09 जून (एजंसिया)।

राजस्थान से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले भूपेन्द्र यादव केन्द्र सरकार में दूसरी बार मंत्री बने हैं। पिछली मोदी सरकार में मंत्री रहे श्री यादव राज्य सभा सदस्य रहे हैं। श्री यादव का जन्म 30 जून 1969 को राजस्थान के अजमेर में हुआ। उन्होंने स्नातक शिक्षा प्राप्त की है। पेशे से वकील रहे श्री यादव के पिता का नाम कदम सिंह और माता का नाम संतरा देवी है। छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे। श्री यादव मूल रूप से हरियाणा के जमालपुर के रहने वाले हैं। श्री यादव भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में दो बार महामंत्री रहे दो बार राज्यसभा सदस्य रहे।

श्री यादव ने इस बार लोकसभा चुनाव में अलवर लोकसभा सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के ललित यादव को 48 हजार 282 मतों से हराया। श्री भूपेन्द्र को छह लाख 31 हजार 992 मत मिले। श्री यादव को दूसरी बार केन्द्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने पर अलवर लोकसभा क्षेत्र के लोगों एवं भाजपा समर्थकों ने आतिशबाजी कर खुशियां मनाई।

राम मोहन नायडू सबसे कम उम्र के केंद्रीय मंत्री बने



नई दिल्ली, 09 जून (एजंसिया)।

छत्तीस वर्षीय किंजावपुर राम मोहन नायडू केंद्रीय मंत्रिपरिषद में सबसे कम उम्र के मंत्रियों में से एक हैं। अद्वारह दिसंबर 1987 को जन्मे श्री नायडू लगातार तीन बार लोकसभा के

लिए चुने गए हैं। वे दिवंगत पूर्व तेदेपा नेता एवं केंद्रीय मंत्री के येन नायडू के बेटे हैं। उन्होंने दिल्ली के दिल्ली पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई पूरी की और बाद में लॉंग आइलैंड से एमबीए किया। वर्ष 2012 में कार दुर्घटना में अपने पिता येन नायडू की दुखद मृत्यु के बाद, राम मोहन नायडू ने 26 साल की छोटी उम्र में 2014 में श्रीकाकुलम से लोकसभा सांसद के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, जिससे वे 16वीं लोकसभा में दूसरे सबसे कम उम्र के सांसद बन गए। राम मोहन नायडू कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के सदस्य के पद पर थे। उन्होंने 16वीं लोकसभा में रेलवे और गृह मंत्रालय संबंधी स्थायी समितियों, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय संबंधी परामर्शदात्री समिति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण और राजभाषा विभाग संबंधी समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

बिहार के आठ सांसद बने केंद्रीय मंत्री

पटना, 09 जून (एजंसिया)। बिहार से दो राज्यसभा सांसद और छह लोकसभा सांसद नरेन्द्र मोदी की 3.0 सरकार में केन्द्रीय मंत्री बने हैं। जनता दल यूनाईटेड (जदयू) के कोटे से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भारतरत्न कर्पूरी ठाकुर के पुत्र राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कोटे से राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने नरेन्द्र मोदी की सरकार में राज्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं, भाजपा के कोटे से बेगूसराय से लोकसभा सांसद गिरिराज सिंह (कैबिनेट मंत्री), उजियारपुर से लोकसभा सांसद नित्यानंद राय (राज्यमंत्री), मुजफ्फरपुर से लोकसभा सांसद राजभूषण चौधरी निषाद (राज्यमंत्री) बनाये गये हैं। जदयू के कोटे से मुंगेर से लोकसभा सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह कैबिनेट मंत्री बनाये गये हैं।

लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के कोटे से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हाजीपुर (सु) से लोकसभा सांसद चिराग पासवान और हिंदुस्तानी आवाज मोर्चा (हम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री और गया (सु) के लोकसभा सांसद जीतन राम मांझी पहली बार नरेन्द्र मोदी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाये गये हैं।

पिता की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं अनुप्रिया



लखनऊ, 09 जून (एजंसिया)।

अपना दल (सोनेलाल) की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल अपने पिता सोनेलाल पटेल की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश में दलित राजनीति का बड़ा चेहरा माना जाता था।

एमबीए तक शिक्षा प्राप्त अनुप्रिया पटेल ने अपने पिता की कार दुर्घटना में मृत्यु के बाद 2009 में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में आधार रखने वाली 43 वर्षीय नेता ने सबसे पहले वाराणसी की रोहनिया सीट से उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में विधायक निर्वाचित हुईं। वर्ष 2014 में उनकी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ गठबंधन किया और आम चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की जीत के बाद उन्हें केंद्रीय राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। 2019 में उनकी पार्टी ने फिर से राजग गठबंधन के हिस्से के रूप में आम चुनाव लड़ा। इस दौरान उन्होंने फिर से मिर्जापुर सीट से जीत हासिल की। 2021 में उन्हें फिर से मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उनके पति आशीष पटेल, जो पेशे से इंजीनियर हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं।

आतंकी हमले से असंतुलित बस खाई में गिरी, 10 मरे, 33 जखमी

जम्मू, 09 जून (ब्यूरो)।

रियासी जिले में शिवखोड़ी तीर्थस्थान से वापस दर्शनार्थियों को लेकर वापस लौट रही एक यात्री बस पर आतंकीयों के कथित हमले के उपरांत यात्री बस के गहरी खाई में गिरे से 10 की मौत हो गई जबकि 33 अन्य जखमी हो गए। यात्री बस पर दावा घटनास्थल नी गोलियों के कुछ खोल मिलने के आधार पर किया जा रहा है। फिलहाल इसी जांच जारी है कि यह गोलियों के खोल ताजा हैं या पुराने हैं।

अधिकारियों ने बताया कि रविवार शाम रियासी जिले में संदिग्ध आतंकी हमले के बाद तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस गहरी खाई में गिर गई, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। यहां शिव खोड़ी से वापस लौट रही बस को आतंकीयों ने निशाना बनाया। आतंकीयों ने कथित तौर पर कम से कम 50 राउंड फायरिंग की। फायरिंग के दौरान बस फ्लाइंग के सिर पर गोली लगने के कारण बस



गहरी खाई में गिर गई। हादसा पौनी और रन्सू के बीच चंडी मोड़ पर स्थित दरगाह के निकट पेश आया है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बस पर रियासी जिले के तेराथा के कांडा इलाके में चांदी मोड़ के पास हमला हुआ। उन्होंने बताया कि संदिग्ध आतंकावादियों ने बस पर गोलीबारी की, जिसमें चालक घायल हो गया और वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा। अधिकारियों ने बताया, बस गहरी खाई में गिर गई, जिससे कम से कम 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। उनमें से कुछ को

गोली भी लगी है। इस बीच, बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया है और सुरक्षा बलों के अतिरिक्त बल भी मौके पर पहुंच गए। एएसपी रियासी मोहिता शर्मा ने कहा पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि आतंकावादियों ने शिव खोड़ी से कटरा जा रही यात्री बस पर गोलीबारी की। गोलीबारी के कारण बस चालक ने बस का संतुलन खो दिया और बस खाई में गिर गई। घटना में 33 लोग घायल हो गए। बचाव अभियान पूरा हो गया है। यात्रियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

यूपी में अबतक 6 हजार से अधिक युवाओं के उद्यम स्वीकृत

लखनऊ, 09 जून (एजेंसियां)। प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शुरू की गई सीएम योगी आदित्यनाथ की फ्लैगशिप स्कीम मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (एमवाईएसवाई) और मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना (एमएमजीआरवाई) ने शानदार प्रदर्शन किया है। प्रदेश में अब तक 6 हजार से अधिक युवाओं के छोटे बड़े उद्यमों को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वीकृत किया जा चुका है। वहीं मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत स्वीकृत हुए 723 इकाइयों में से 605 को धनराशि प्रदान की जा चुकी है। हाल ही में प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के सामने प्रस्तुत की गई राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की त्रैमासिक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है।

उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक और बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक समीर रंजन पांडा के अनुसार योजना का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को उद्यम शीलता के लिए प्रोत्साहित करने और अन्य युवाओं के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करना है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार



युवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने व्यवसाय का सफलतापूर्वक संचालन कर सकें।

रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 7500 यूनिट्स को धनराशि प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष अबतक 6259 इकाइयों को सरकार की ओर से स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं अबतक 5648 इकाइयों को धनराशि वितरित की जा चुकी है। इसमें शुरुआत में कुल मार्जिन मनी 14550 लाख रुपए तय की गई थी,

जिससे अधिक अबतक 16360 लाख रुपए को स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि 14821 लाख रुपए युवाओं को वितरित भी किये जा चुके हैं। बात करं मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना की तो इसमें भी 800 इकाइयों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से 90 प्रतिशत से अधिक यानी 723 इकाइयों को स्वीकृति मिल चुकी है और लक्ष्य का 76 प्रतिशत यानी 605 यूनिट्स को लाभान्वित किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार

के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एक फ्लैगशिप योजना है। इस योजना को सितंबर 2018 में शुरू किया गया था। योजना का उद्देश्य प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को उनके उद्यम के सपने को साकार करने के लिए वित्तीय सहायता और अन्य सहयोग प्रदान करना है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार पात्र आवेदकों को इंडस्ट्री लगाने के लिए रु. 25 लाख तक और सेवा क्षेत्र के लिए रु. 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराती है। इस योजना की नोडल एजेंसी डीआईसी, कानपुर है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी को उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम हाई स्कूल होना चाहिए और वह किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। सभी स्रोतों से उसकी (ओबीसी, अल्पसंख्यक और सामान्य वर्ग) वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए वहीं एससी-एसटी श्रेणी के लिए ये लिमिटेड ढाई लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परिषदीय विद्यालयों में स्काउट एंड गाइडिंग को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा

लखनऊ, 09 जून (एजेंसियां)। परिषदीय विद्यालयों में छात्रों की शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास करने के लिए योगी सरकार कक्षा एक से कक्षा 8 तक के प्राथमिक विद्यालयों में स्काउट एवं गाइडिंग को प्रभावी ढंग से संचालित करने जा रही है। इसी क्रम में पूरे प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में स्काउट एंड गाइड की यूनिटें स्थापित की जाएंगी। नए सत्र से पहले इन यूनिटों की स्थापना करने के निर्देश दिए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि कब/बुलबुल तथा स्काउट/गाइड कार्यक्रमों द्वारा बच्चों में उच्च कोटि की नैतिकता, अनुशासन, राष्ट्रीय एकता की भावना तथा चरित्र निर्माण आदि गुणों का विकास होता है। अभी अधिकतर जगह पर कक्षा छह से आठ के विद्यालयों में यह यूनिटें स्थापित हैं। अब कक्षा एक से पांच के विद्यालयों में भी इस यूनिट की स्थापना की जाएगी।

शिक्षा निदेशक (बेसिक) प्रताप सिंह बघेल द्वारा सभी मंडलीय

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया गया है। उन्होंने कहा है कि कक्षा एक से पांच तक के हर परिषदीय विद्यालयों में कम से कम एक यूनिट का पंजीकरण अवश्य होगा। प्रत्येक दल में 24-24 सदस्य होंगे। इसी प्रकार कक्षा 6 से कक्षा 8 तक संचालित प्रत्येक परिषदीय विद्यालय में भी कम से कम एक यूनिट स्थापित की जाए, जिसमें 32-32 सदस्य होंगे। विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की संख्या के आधार पर दलों की संख्या उसी अनुपात में बढ़ाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त पूर्व से पंजीकृत यूनिट का नवीनीकरण भी अवश्य कराया जाए। ये भी निर्देश दिया गया है कि नए दलों का पंजीकरण व पुराने का नवीनीकरण नए सत्र से पहले कराया जाए।

उन्होंने कहा है कि ऐसे परिषदीय विद्यालय जहां यूनिट लीडर के रूप में शिक्षक प्रशिक्षित नहीं हैं, उनका भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश संस्था के माध्यम

से प्रशिक्षण कराया जाए। 7 दिवसीय यह प्रशिक्षण आवासीय होगा। शुरुआत में इसके लिए हर जिले से 50-50 शिक्षकों को नामित किया जाए। इसके साथ ही डीबीटी की राशि से छात्र-छात्राओं के लिए एक सेट स्कूली ड्रेस और एक सेट स्काउट गाइड ड्रेस अभिभावकों से तैयार करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त स्काउट गाइड का कम से कम एक बैड प्रत्येक जनपद ब्लॉक स्तर पर तैयार किया जाए तथा इस बैड की प्रतियोगिता भी जनपदीय तथा अंतर्जनपदीय स्तर पर आयोजित की जाए। यही नहीं भारत स्काउट गाइड संस्था द्वारा जिले एवं प्रदेश स्तर पर आयोजित की जाने वाली बीएसजी ज्ञान प्रतियोगिता (2024-25) एवं जनपद/प्रादेशिक स्तर पर सर्वोत्तम कैडेट प्रतियोगिता में अधिक से अधिक छात्र-छात्राओं को प्रतिभाग कराया जाए। साथ ही कक्षा छह से आठ तक स्काउट गाइड का निर्धारित पाठ्यक्रम समय सारिणी के अनुसार चलाया जाए।

प्रधानमंत्री और सांसद बर्नी अभिनेत्री पर युवक ने की अभद्र टिप्पणी भाजपाइयों में आक्रोश कार्रवाई की मांग

मैनपुरी, 09 जून (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक गैर समुदाय के युवक ने देश के प्रधानमंत्री और सांसद चुनी गई अभिनेत्री पर आपत्तिजनक पोस्ट की।



जानकारी होने के बाद भाजपाइयों में आक्रोश व्याप्त हो गया। रविवार को थाने पहुंच कर पदाधिकारी व समर्थकों ने पोस्ट करने के बाद मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

मामला बरनाहल थाना क्षेत्र के बालाजी नगर का है। रविवार को भाजपा नेता ललित ठाकुर, रजत गौड़ कई अन्य कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचकर तहरीर दी। बताया कि कम्बो के बालाजी नगर निवासी एक गैर समुदाय के

व्यक्ति ने सोशल मीडिया फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा सांसद कंगना रनौत को लेकर अपमानजनक बातें लिखी हैं। पोस्ट के माध्यम से स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं को भी गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दे रहा है। इस पोस्ट से भाजपा समर्थकों में आक्रोश व्याप्त है। आरोपी ने यह हरकत करके माहौल खराब

करने की कोशिश की है। आरोपी के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज करने के साथ ही गिरफ्तार कर कार्रवाई करने की मांग की। शिकायत करने वालों में भाजपा नेता विक्रम सिंह, धर्मेश माथुर, मोहम्मद आरिफ, धर्मेश यादव, सचिन माथुर आदि लोग शामिल थे। थानाध्यक्ष सुखवीर का कहना है कि तहरीर मिली है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

जनधन अकाउंट में यूपी अव्वल, महिलाएं सर्वाधिक

लखनऊ, 09 जून (एजेंसियां)।

केंद्र सरकार की ओर से संचालित तमाम गरीब कल्याणकारी योजनाओं को मिशन मोड में धरातल पर उतारने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सतत मॉनीटरिंग के कारण योजनाओं को न केवल गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध ढंग से धरातल पर उतारा जा रहा है, बल्कि इस आधार पर तेज गति से विकास का यूपी मॉडल स्थापित हो रहा है। वित्त मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना में भी यूपी शीर्ष पर है। देश में जनधन खाताधारकों की संख्या जहां 52 करोड़ से ऊपर है, वहीं यूपी में ये संख्या 09.33 करोड़ हो चुकी है। यह राज्यों के स्तर पर सर्वाधिक संख्या है। वहीं सबसे सुखद बात यह है कि इसमें भी लगभग 05 करोड़ जनधन खाताधारक महिलाएं हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार यूपी में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत



कुल 09 करोड़ 33 लाख 66 हजार 265 खाताधारक हैं। 29 मई 2024 तक के इन आंकड़ों पर नजर डालें तो इनमें 06 करोड़ 71 लाख 78 हजार 705 खाताधारक ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों के निवासी हैं, जबकि 02 करोड़ 61 लाख 87 हजार 560 खाताधारक शहरी और मेट्रो सिटी में रहने वाले गरीब हैं। इन 09.33 करोड़ खाताधारकों के खातों में कुल 47,427.21 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। वहीं प्रदेश में रूपे कार्डधारकों की संख्या 06 करोड़ 14 लाख 39 हजार 064

सर्वाधिक है। इसके अलावा देश में महिला जनधन खाताधारकों की संख्या जहां 29.11 करोड़ है, वहीं यूपी में यह संख्या लगभग 05 करोड़ है जोकि प्रदेश में कुल खाताधारकों की संख्या के आधे से अधिक है।

बीते वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश में 65 लाख के करीब नए प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट खोले गये हैं। इनमें से अब तक 91 प्रतिशत से अधिक जनधन खातों के आधार सीडिंग का भी कार्य पूरा हो चुका है। बता दें कि मार्च 2023 तक प्रदेश में जनधन खातों की संख्या

08.68 करोड़ थी जोकि मार्च 2024 में बढ़कर 09.28 करोड़ पहुंच गयी। ताजा आंकड़ों के अनुसार 29 मई 2024 तक यह संख्या 09.33 करोड़ हो चुकी है।

दरअसल, प्रधानमंत्री जनधन योजना एक राष्ट्रीय मिशन है। इसमें प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूल बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन सुविधा सहित सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना है। इसके अलावा, लाभार्थियों को रूपे डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसमें एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर भी शामिल है। सबसे अहम बात यह कि इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी (केन्द्र, राज्य और स्थानीय निकाय से प्राप्त होने वाले) वित्तीय लाभों को लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) के जरिए प्रदान किया जाता है। इससे लाभार्थियों को वित्तीय योजनाओं का लाभ शत प्रतिशत सीधे उनके बैंक अकाउंट में प्राप्त हो रहा है। इससे भ्रष्टाचार पर लागाम लगाने में भी सफलता मिलती है।

विचाराधीन मुकदमे में समझौते के लिए कोर्ट में लगाए फर्जी शपथपत्र



नौ के खिलाफ रिपोर्ट

अलीगढ़, 09 जून (एजेंसियां)।

कोर्ट में विचाराधीन मुकदमे में वादी पक्ष के फर्जी शपथपत्र व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुकदमा समाप्त कराने के धोखाधड़ी के प्रयास के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अलीगढ़ के आदेश पर नौ लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है।

सन् खेड़ा निवासी रवि प्रकाश पुत्र देवप्रकाश द्वारा दर्ज कराई रिपोर्ट के अनुसार 29 जनवरी 2017 को नामजदों ने घर में घुसकर मारपीट की थी। मामले में 12 फरवरी 2017 को खैर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने सिविल कोर्ट खैर में आरोप पत्र प्रस्तुत किया था। आरोप है कि मुकदमे से बचने के लिए नामजदों ने फर्जी शपथपत्र तैयार

कर समझौते के उद्देश्य से कोर्ट में पेश किए थे।

पत्रावली के अवलोकन से पता चला कि नामजद ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर फर्जी स्वीकृति के आधार पर मुकदमा समाप्त किए जाने की मांग की थी। पीड़ित पक्ष ने कोर्ट को गुमराह किए जाने तथा फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने की शिकायत खैर पुलिस से की थी तथा एमएसपी अलीगढ़ को भी डाक से प्रार्थना पत्र भेजा था।

बाद में कार्रवाई के लिए कोर्ट में गुहार लगाई थी। तहरीर पर अमित, रवी, रजत, सुरेश, चिट्टू उर्फ देवेन्द्र, विजयपाल, वीरपाल, राधेश्याम, पवन निवासीगण सन् खेड़ा के खिलाफ धोखाधड़ी, कूरचित दस्तावेज तैयार करना, षड्यंत्र की धाराओं में कोतवाली खैर में अभियोग पंजीकृत कराया गया है।

यूपी में भीषण गर्मी: 46 पहुंचा प्रयागराज का पारा, कई शहरों में लू की चेतावनी



लखनऊ, 09 जून (एजेंसियां)।

यूपी में लगातार गर्मी बनी हुई है। पारे में लगातार उछाल दर्ज किया जा रहा है। रविवार को भी दिन और रात के पारे में एक डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। प्रदेश के कई शहर लू की चपेट में रहे। मौसम वैज्ञानिक आगे भी ऐसा ही मौसम रहने का अंदेश जता रहे हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, गोरखपुर, बलिया, प्रयागराज और बहराइच व आसपास के इलाकों में लू जैसे हालात बने रहे। लखनऊ में तापमान 43 डिग्री पहुंच गया। प्रयागराज 45.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सर्वाधिक गर्म रहा। वाराणसी-कानपुर, आगरा, झांसी, हमीरपुर में अधिकतम तापमान 44 डिग्री से अधिक ही रहा।

बांदा, चित्रकूट, कानपुर देहात, कानपुर नगर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी,

ललितपुर व आसपास के इलाकों में लू चल सकती है। वहीं मौसम विभाग ने कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत विद्या नगर, जौनपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, शावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज एटा व आसपास के इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। इन इलाकों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विशेषज्ञ एचआर रंजन के मुताबिक, एक सिस्टम विकसित हो रहा है, जिसके मुताबिक, 14, 15 और 16 जून के आसपास बौछारों के आसार हैं। इससे तपिश से कुछ राहत के आसार हैं। कई जिलों में ज्यादा बारिश भी हो सकती है।

गर्मी से बुखार, डायरिया, हार्ट और सांस की बढ़ रही समस्या

नौ दिन में पांच बच्चों सहित 10 की मौत

मैनपुरी, 09 जून (एजेंसियां)।

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में लगातार पड़ रही गर्मी लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। रविवार को भी नौ माह के एक बच्चे की बुखार की चपेट में आने से मौत हो गई। पिछले नौ दिन में जिले में 10 मरीजों की मौत हुई है। इनमें पांच बच्चे शामिल हैं। पिछले एक महीने से जिले का तापमान 40 डिग्री के आस-पास या इससे अधिक बना हुआ है। इसके चलते अस्पतालों में डायरिया, बुखार, सांस और हार्ट के मरीजों की संख्या बढ़ी है। रविवार को भी जिला अस्पताल की इमरजेंसी में मरीजों की भीड़ देखी गई। यहां 23 मरीज भर्ती कराए गए इनमें से 16 मरीज डायरिया, पेटदर्द, बुखार और सांस की दिक्कत से पीड़ित थे।

एलाऊ थाना क्षेत्र के भांवल निवासी शिवानंद की नौ माह की पुत्री एकता को पिछले कुछ दिनों से बुखार आ रहा था। परिजन उसका एक निजी डॉक्टर के यहां उपचार करा रहे थे। हालत बिगड़ने पर रविवार को परिजन बच्ची को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे यहां डॉक्टरों ने उसे मृत



घोषित कर दिया। जून महीने में अब तक की बात की जाए तो 10 मरीजों की मौत हुई है। इनमें पांच बच्चे शामिल हैं। ये बच्चे डायरिया के साथ ही बुखार की चपेट में थे। इन मौतों से यह साबित हो रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के इंतजाम कहीं न कहीं प्रभावित हो रहे हैं। इसके चलते मरीजों की लगातार मौत हो रही है। यदि विभाग ने जल्द इस तरह ध्यान नहीं दिया तो समस्या और भी बढ़ सकती है।

तीन दिन में तीन बच्चों की मौत

खड़े कर रही सवाल पिछले तीन दिन में तीन बच्चों की मौत स्वास्थ्य विभाग के सामने सवाल खड़े कर रही है। सात जून को डेरा बंजारा में छह साल के बच्चे की लू के चलते डायरिया की चपेट में आने से मौत हुई। आठ जून को एलाऊ के नगला शोभी निवासी छह माह के बच्चे की बुखार और डायरिया की चपेट में आने से मौत हो गई। वहीं नौ जून को एलाऊ के ही गांव भांवल में बुखार से पीड़ित नौ माह के बच्चे की मौत हो गई।

गुरसा झट से हो जाएगा गायब, बस अपनाएं ये टिप्स



कहते हैं गुरसा व्यक्तिको चंडाल बना देता है। बात-बात पर गुरसा करने वाले इंसान से परिवार वाले और उसके आस-पास के लोग परेशान हो जाते हैं। कई बार तो इस तरह के व्यक्तिको से लोग बात करने से भी कतराते हैं। किसी परेशानी, तनाव, बिजनेस या नौकरी का परेशानी और रिश्तों में बह रही दूरियां को कारण भी गुरसा आने लगता है। कई बात तो इससे कुछ लोग खुद भी परेशान हो जाते हैं। इसके लिए आप कुछ उपाय अपना कर इससे समस्या से राहत पा सकते हैं।


1. गुरसा आने पर किसी से बात करने की बजाए कुछ देर के लिए अकेले बैठ जाएं। मांसपेशियों को रिलैक्स करें। इससे गुरसा शांत हो जाएगा।

2. किसी बात से परेशान हैं तो गुरसा होने की बजाए गहरी सांस भरे और आंखें बंद करके खुद को शांत करने की कोशिश करें।

3. गुरसा को दूर करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि माहौल को खुशनुमा बनाएं। बहिया से परंपरम को महक लें। आप हेरान जाएंगे कि इससे गुरसा खुशी में बदल जाएगा।

4. टंडा पानी पीने से भी गुरसा शांत हो जाता है। परेशानी को दूर करने के लिए उल्टी गिनती गिनना शुरू करें।

कैंसर का इलाज करें खीरा, और भी कई बीमारियां में फायदेमंद



खीरा, इसे लोग सालाद के रूप में बड़े शौक से खाते हैं। सालाद के अलावा भी इसे सैंडविच या फास्ट में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। खीरा खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद साबित होता है। इससे शरीर में हमेशा ताजगी बनी रहती है। आइए जानते हैं इसके सेहत संबंधी फायदों के बारे में...

कब्ज : कब्ज होने पर खीरा खाने से पेट की परेशानी दूर होती है। इसे अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। रोजाना इसके सेवन से कब्ज से राहत पाई जा सकती है।

ब्लड प्रेशर : हाई ब्लडप्रेशर से राहत पाने के लिए खीरे का सेवन बहुत अच्छा होता है। इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और यह शरीर को ठंडा रखता है।

कैंसर : इसमें बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो कैंसर से रोकथाम करने में मददगार हैं और यह बहुत अच्छा एंटीऑक्सिडेंट भी है। जिससे प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है।

वजन घटाएं : खीरे में कैलोरी बहुत कम और फाइबर ज्यादा होता है। मीड डे की भूख को शांत करने के लिए खीरा खाएं। जिससे पेट देर तक भरा रहता है और वजन कम हो जाता है।

किडनी : खाने में हर रोज इसका इस्तेमाल करने से पथरी की परेशानी से बचा जा सकता है। यह पित्ते और कोलीकी की पथरी से बचाए रखती है। खीरे के रस को दिन में 2-3 बार पीना लाभकारी होता है।

कोलेस्ट्रॉल : खीरे में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता। दिल के मरीजों के लिए खीरा खाना बहुत अच्छा होता है। इसमें पाया जाने वाला स्ट्रोल तत्व कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है।

पीरियड का दर्द दूर : जिन लड़कियों को मासिक धर्म के दौरान काफी परेशानी होती है वो दर्द भी खीरे को कटुकस करके उसमें पुदीना, काला नमक, काली मिर्च, जीरा और हॉंग डालकर खाएं। इससे काफी आराम मिलेगा।

साइकिल चलाने के ये फायदे

क्या कभी किसी ने बताए हैं आपको...



अगर आप वजन घटाने की सारी कोशिशों करके हार चुके हैं तो कुछ दिन साइकिल चलाकर देखें। अगर आपको फिट बाँडी की खाहिश है तो साइकिल चलाना शुरू करें। साइकिलिंग से बेहतर शायद ही कोई दूसरी एक्सरसाइज हो। अगर आपको फिट और एक्टिव बाँडी चाहिए तो आज से ही साइकिल चलाना शुरू कर दें।

जरूरी नहीं है कि आप साइकिल चलाने के लिए अलग से समय निकालें। आप चाहें तो

अपने रोजाना के कामों को पूरा करने के लिए ही साइकिल चला सकते हैं। ये छोटी सी कोशिश आपको व्यायाम जितना फायदा पहुंचाएगी। आप चाहें तो सुबह दूध लाने के लिए साइकिल चलाकर दुकान तक जा सकते हैं। हर रोज कुछ मिनट साइकिल चलाकर ही आप फिट और एक्टिव बाँडी पा सकते हैं। इसके अलावा भी साइकिल चलाने के कई फायदे हैं।

1. सुरक्षित रखने में मददगार

अगर आप हर रोज कुछ देर के लिए भी साइकिल चला रहे हैं तो आप में दिल से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाता है। इससे धड़कन तेज होती है और ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है।

2. मांसपेशियों की मजबूती के लिए

साइकिल चलाने से पैरों की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है और इससे पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं।

3. वजन घटाने का बेहतरीन उपाय

नियमित रूप से साइकिल चलाकर आप कुछ ही दिनों में वजन कम कर सकते हैं। ये शरीर में मौजूद अतिरिक्त चर्बी को घटाने में मददगार है। रोजाना साइकिल चलाकर आप फिट और एक्टिव बाँडी पा सकते हैं।

4. इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने में मददगार

रोजाना साइकिल चलाने से इम्यून सिस्टम मजबूत बनता है। जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है।

5. तनाव से राहत दिलाने में मददगार

नियमित रूप से साइकिल चलाने वालों को अवसाद की शिकायत होने की आशंका बहुत कम होती है।

इन चीजों से करेंगे साफ तो चमक जाएंगे सफेद जूते



सफेद जूते पर्सनैलिटी को भी चार चांद लगा देते हैं। आजकल जैसे भी इस रंग के जूतों का काफी ट्रेंड है लेकिन कुछ लोग सिर्फ इस वजह से सफेद जूते पहनना पसंद नहीं करते क्योंकि ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। ज्यादातर स्कूल के बच्चे और एक्सरसाइज करते समय लोग सफेद स्पोर्ट्स जूते पहनते हैं लेकिन बारिश के दिनों में कीचड़ और मिट्टी की वजह से ये गंदे हो जाते हैं। इन्हें साफ करने के लिए कई लोग जूतों को वाशिंग मशीन में डाल देते हैं लेकिन इससे जूते खराब हो जाते हैं और अच्छे से साफ भी नहीं होते। ऐसे में कुछ आसान तरीके अपनाकर इन्हें मिनटों में साफ किया जा सकता है।

1. एक चम्मच बाइकार्बोनेट सोडा, आधा चम्मच पानी और आधा चम्मच हाईड्रोजन पेरोक्साइड को एक बाउल में डालकर पेस्ट बना लें।

2. अब जूतों के तस्मों को निकाल लें और दूधब्रश की मदद से इस पेस्ट को जूतों पर लगाएं। अब इन तस्मों को बाउल में डाल दें ताकि बच हुआ पेस्ट उन पर लग जाए।

3. पेस्ट लगे जूतों और तस्मों को 4-5 घंटों के लिए धूप में सूखने के लिए रख दें।

4. जब जूतों का पेस्ट सूख जाए तो इन्हें डिट्रिजेंट से धोएं और धूप में सूखने के लिए रख दें। इससे जूते एक दम चमक उठेंगे।

मानसून में ऐसे रखेंगे फर्नीचर का ध्यान तो नहीं होगा खराब

तेज तपती गर्मी के बाद मानसून का इंतजार तो हर किसी को बेसब्री से लगा रहता है। लेकिन जहां यह मौसम चेहरे पर मुस्कान लाता है, वहीं अपने साथ कई तरह की प्रॉब्लम भी लेकर आता है जैसे दीवारों की सीलन, कपड़ों में बदबू। इसके अलावा एक और चिंता है जो हर किसी को सताती है वो लकड़ी के फर्नीचर की क्योंकि इस मौसम में लकड़ी के फर्नीचर में सीलन और उसमें कोड़े लगने शुरू हो जाते हैं। इतना ही नहीं लकड़ी फूलने लगती है ऐसे में घर का फर्नीचर खराब हो जाता है। फर्नीचर को बचाने के लिए लोगों को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। अगर आपको भी अपने फर्नीचर की चिंता सता रही है तो घबराएं नहीं। हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे, जिससे आप लकड़ी के फर्नीचर को बचाए रख सकते हैं।

1. **फर्नीचर को सेफ जगह पर रखें :** मानसून में पड़े लकड़ी के फर्नीचर को किसी ऐसी जगह पर रखें जहां, बारिश की बूंदें उनक तक न पहुंच पाएं। इससे वह गीले होने से बचे रहेंगे।

2. **समय-समय पर ऑयलिंग दें :** अगर आपके घर के खिड़की दरवाजे भी लकड़ी के हैं तो उन्हें समय-समय पर ऑयलिंग करें। ऐसा करने से उन्हें कोई कीड़ा नहीं लगने पाएँ।

3. **नीम के पत्तों का इस्तेमाल करें :** घर में नीम की कटौल करने के लिए सूखे नीम के पत्तों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप ह्यूमीडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

4. **फर्नीचर को दीवारों से दूर रखें :** अधिकतर देखने को मिलता है कि लोग अपने फर्नीचर को दीवारों से जोड़कर रखते हैं लेकिन बारिश के मौसम में इनकी खास केयर करनी पड़ती है। इसलिए बेहतर होगा कि मानसून में लकड़ी को फर्नीचर को दीवारों से दूर लगाकर रखें। इससे वह डैम लगने से बचे रहेंगे।

5. **पॉलिश या पेंट करवाएं :** बारसात के दिनों में अपने फर्नीचर को पॉलिश या पेंट करवाएं। इससे वह नमी से बचे रहें और खराब भी नहीं होंगे।

मानसून में करें इन साबुनों का इस्तेमाल, त्वचा में आएगा निखार

बारिश के मौसम में वातावरण में मौजूद नमी आपकी त्वचा को प्रभावित कर सकती है, ऐसे में कुछ मामूली बदलाव और आयुर्वेदिक साबुन के इस्तेमाल से त्वचा की चमक व ताजगी बरकरार रखी जा सकती है। बायोटिक के सौंदर्य विशेषज्ञों और सोल फ्लॉवर के प्रबंध निदेशक शारदा ने मानसून के दौरान त्वचा की देखभाल से संबंधित कुछ सुझाव दिए हैं।

1. आयुर्वेदिक और हर्बल साबुन त्वचा के पीएच बैलेंस को प्रभावित किए बिना सौम्यता से शरीर की अशुद्धियों को दूर करते हैं। इस मौसम में बैक्टीरिया और गंदगी से त्वचा को बचाना जरूरी है। ये साबुन त्वचा में नमी बरकरार रखते हैं और इसे रिजुवनेट करते हैं।

2. आयुर्वेदिक साबुन जैसे बायो ऑलमंड ऑयल शरीर को पोषित करते हैं, जो प्राकृतिक पोषक तत्वों से समृद्ध होते हैं। वे वादाम, मारगोसा, नारियल तेल, हल्दी आदि से युक्त होते हैं, जो त्वचा को मुलायम बनाते हैं।

3. गुलाब के सत्वों से बना साबुन त्वचा में प्राकृतिक नमी बरकरार रखते हुए चमक और निखार लाता है। गुलाब का तेल और पंखुड़ियां त्वचा के दाग-धब्बों को दूर करते हैं।

4. मानसून में लैवेंडर साबुन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके जीवाणुरोधी गुण त्वचा में हो रही जलन और खुजली को दूर करते हैं, इसकी खुशबू ताजगी और सुकून का अहसास कराती है।

5. चारकोल साबुन तैलीय और मिश्रित त्वचा को ही करता है।



के लिए मानसून में अच्छा विकल्प है। साबुन में मौजूद एक्टिवेटेड बैबू चारकोल गंदगी, टॉक्सिन और अशुद्धियों को दूर कर त्वचा के रोम छिद्रों को खोल देते हैं। ये मुंहासे, दाग-धब्बे भी दूर करते हैं।

6. पपीता और खीरा युक्त साबुन सभी

प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त होते हैं। यह त्वचा की मृत कोशिकाओं को हटा कर रोम छिद्र खोल देता है और मुंहासों को नियंत्रित कर दाग-धब्बे कम करता है। इसके इस्तेमाल से त्वचा को मूल्य हो जाती है। यह त्वचा में नमी बरकरार रखता है।

कुछ इस तरह बनाएं अपनी सुबह खिली-खिली...



दी ब्याडी क्लक गाइड 24 बेटर हेल्थ के मुताबिक 10 में से महज 1 ही व्यक्ति सही मायनों में मायनों में मॉर्निंग पर्सन कहलाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 10 में महज दो ही लोगों की स्थिति सुबह उठते हुए गंभीर होती है बाकी सब सामान्य रहते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी सुबह खिली-खिली हो, आप मॉर्निंग पर्सन कहलाएं तो इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। अपना ध्यान देना होगा और सोने के घंटों में इजाफा करना होगा।

अच्छी नींद लें

डेलीबर्नडॉटकॉम वेबसाइट के मुताबिक आपको चाहिए कि नियमित अच्छी नींद लें। अगर इसके लिए आपको अपने शिड्यूल में कुछ बदलाव करने होंगे तो उससे भी परहेज न करें। आप चाहें तो अपने काम को देर रात तक करने की बजाय देर शाम तक ही खत्म कर लें। अगर तब भी काम अधूरा रह जाए तो काम को वहीं अधूरा छोड़ सो जाएं और सुबह जल्दी उठने का नियम बनाएं। रात को ली गई नींद आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा जरूरी है। जब नींद पूरी होती है तो सुबह त?के उठने से आपको परहेज भी नहीं होगा।

पर्याप्त समय लें

आप एक रात में किला फुल नहीं कर सकते। इसलिए यह न सोचें कि आप अपने शिड्यूल को बैलेंस नहीं कर पा रही हैं। इसके लिए बेहतर है कि आप पर्याप्त समय लें। धीरे-धीरे कर अपनी जीवनशैली में बदलाव करें। इतना ही नहीं संभव हो

तो किसी विशेषज्ञ को राय भी ले सकती हैं। एक बात और ध्यान में रखें कि खुद को काम के बोझ के तले न दबाए रखें।

रूटीन बनाएं और फालो करें

अकसर देखने में आता है कि लोग रूटीन तो बना लेते हैं लेकिन उसे फालो नहीं करते। आपको बता दें कि यह तो ढाक के तीन पात वाली बात हो गई। बेहतर तरीका है कि रूटीन बनाएं, इसके लिए आप किसी को मदद भी ले सकती हैं। साथ ही उसे फालो भी करें। आपको बता दें कि रूटीन बनाने के लिए मदद ली जा सकती है। लेकिन रूटीन फालो आपको खुद को ही करना होगा।

दिन में लें छोटो से झपकी

अगर आप देर रात तक पर्याप्त नींद नहीं ले पाई हैं तो उसकी भरपाई के तहत दिन में ही छोटी सी झपकी ले सकती हैं। इससे आपको न सिर्फ रिलैक्स फील होगा बल्कि आपको शरीर को अच्छा भी महसूस होगा। आपको खुद को थकान की गत में नहीं महसूस करेंगी। लेकिन हमेशा कोशिश करें कि रात की नींद पूरी लें।

स्मार्टली खाएं

विशेषज्ञों की मानें तो अगर आप सोने जा रही हैं तो इस समय दोनों ही तरह की स्थिति को नजरंदाज करें मसलन न तो बहुत ज्यादा खाएं और न ही भूखी रहें। ये दोनों ही स्थिति आपको मॉर्निंग पर्सन बनने नहीं दे सकती है। इसके उलट

रेसिपी



विधि

मध्यम आंच पर एक पैन में सभी खड़े मसाले डालकर सुनहरा होने तक भून लें। गरम मसालों को प्लेट में निकालकर ठंडा होने दें। अब एक कड़ाही में तेल डालकर गर्म होने के लिए तेल आंच पर रखें। जब तक तेल गर्म हो रहा है। भूने साबुत मसालों को मिवसर में पीसकर पाउडर बना लें। तेल में काजू को डालकर हल्का सुनहरा होने तक तल लें। काजू को किचन पेपर में निकाल लें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए। काजू को एक बार में डालें फिर इसमें तैयार किया गर्म मसाला, चाट मसाला, काला नमक और चीनी डालकर अच्छी तरह मिवस कर लें। आप चाहें तो बोईल को 9कवर करके अच्छी तरह हिला लें। तैयार मसालेदार काजू को सर्व करें या फिर एयरटाइट कंटेनर में डालकर हफते 10 दिन तक रख सकते हैं।

रोस्टेड काजू मसाला


सामग्री

2 काजू, 12-15 साबुत कालीमिर्च, 2 बड़ा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1-2 लौंग, 3-4 सूखी लाल मिर्च, तलने के लिए तेल, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, स्वादानुसार काला नमक, 1 छोटा चम्मच चीनी

मीठे समोसा

सामग्री

आधा किलो मैदा, 3 बड़ा चम्मच बटर / मक्खन, 300 ग्राम घी, भरावन के लिए: आधा छोटा चम्मच तिल, 2 बड़ा चम्मच खोया, 8-10 किशमिश, आधा कप चीनी, 1 कप नारियल, कटुकस, 2 बड़ा चम्मच खसखस, आधा छोटा चम्मच वेनीला एसेंस



विधि

एक कटोरे में मैदा, बटर और पानी ले कर मुलायम आटा गूंद लें। इसके बाद आटे को आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख दें। तय समय के बाद इसे फिर से अच्छी तरह मसलें। जब यह मुलायम हो जाए तो इसकी छोटी-छोटी लोई लेकर पड़ियां बेल लें। अब एक कटोरे में खोया, चीनी, तिल, थिसी नारियल, खसखस और कुछ बूंद वेनीला एसेंस की डालकर अच्छी तरह मिवस कर लें। तैयार मिश्रण से एक चम्मच मसाला पुरिया में रखें और इसे समोसे जैसा आकार दें। समोसे के कोनों को चिपकाने के लिए आप चाहें तो अंडे का इस्तेमाल करें या फिर कांटे वाले चम्मच से दबाकर पैक कर सकते हैं इसके बाद जब समोसों में भरावन पूरी तरह से भर जाए तब इन पर बटर लगा दें। मीडियम आंच में एक कड़ाही में घी डालकर गर्म करें। जब घी गर्म हो जाए तो समोसों को इसमें डीप फ्राई कर लें। आप चाहें तो इन समोसों को चाशनी में भी डिबो सकते हैं। इसके लिए 1 कप पानी में एक कप चीनी डालकर चाशनी तैयार कर लें और फिर इन समोसों को इसमें डालकर कुछ देर तक रखें और निकालकर सर्व करें।



इगा स्विघातेक ने चौथी बार जीता फ्रेंच ओपन का खिताब, फाइनल में पाओलिनी को 6-2, 6-1 से हराया

पेरिस, 09 जून (एजेंसियां)।

फ्रेंच ओपन 2024 के महिला एकल के फाइनल में विश्व नंबर एक पोलैंड की इगा स्विघातेक ने 12वीं वरीयता प्राप्त इटली की जैस्मिन पाओलिनी को लगातार सेटों में 6-2, 6-1 से हरा दिया है। स्विघातेक इस खिताब को डिफेंडिंग चैंपियन भी थीं। यह उनका चौथा फ्रेंच ओपन खिताब रहा। वह 2020, 2022 और 2023 में चैंपियन बनी थीं। वहीं, पाओलिनी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची थीं। हालांकि, इस युवा

खिलाड़ी को स्विघातेक के हाथों खिताबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। एकतरफा अंदाज में जीता फाइनल शॉपिंग वाला स्विघातेक ने पेरिस में पांच साल में चौथी बार फ्रेंच ओपन का खिताब हासिल किया। वह जस्टिन हेनन (2007-09) के बाद लगातार तीन बार फ्रेंच ओपन जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। स्विघातेक ने सेमीफाइनल में तीसरी वरीयता प्राप्त गॉफ को 6-2, 6-4 से पराजित किया था। वहीं, फाइनल में भी स्विघातेक ने

पाओलिनी को कोई मौका नहीं दिया और एकतरफा अंदाज में जीत हासिल की। स्विघातेक नहीं जीत पाई हैं ये दो ग्रैंडस्लैम इसके अलावा स्विघातेक 2022 में यूएस ओपन का खिताब भी जीत चुकी हैं। हालांकि, इस चैंपियन खिलाड़ी के नाम ऑस्ट्रेलिया ओपन और विंबलडन का खिताब नहीं है। ऑस्ट्रेलियन ओपन (2022) में वह सेमीफाइनल तक पहुंच पाई हैं। वहीं, विंबलडन (2023) में वह क्वार्टर फाइनल तक पहुंच पाई हैं। इटली की जैस्मिन पाओलिनी ने

सेमीफाइनल में मिरा आंद्रीवा को 6-3, 6-1 से हराकर फ्रेंच ओपन फाइनल में प्रवेश किया था। यह उनके कैरियर का इसका अंतिम स्लैम फाइनल रहा। वर्ल्ड रैंकिंग में 12वें स्थान पर मौजूद पाओलिनी लॉटफेर करने के मकसद से उतरी थीं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकीं। वह 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे राउंड से बाहर हुई थीं। वहीं, 2021, 2022 और 2023 में विंबलडन में पहले राउंड से ही बाहर हुई थीं। 2021 में यूएस ओपन में वह दूसरे राउंड से बाहर हो गई थीं।

न्यूज़ ब्रीफ

हज यात्रा पर रवाना हुई सानिया मिर्जा

नई दिल्ली। पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा हज यात्रा पर रवाना हो गई हैं। सानिया ने सोशल मीडिया



प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी और कहा कि उन्हें काफी इंतजार के बाद इस पवित्र यात्रा पर जाने का अवसर मिला है। सानिया मिर्जा हज की अपनी पवित्र यात्रा शुरू कर चुकी है। पूर्व टेनिस खिलाड़ी ने अपने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि उन्हें पवित्र यात्रा पर निकलने का अविश्वसनीय अवसर मिला है क्योंकि वह जल्द ही सऊदी अरब के

पवित्र शहर मक्का में होंगी। अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किए गए एक लंबे नोट में, सानिया ने लिखा, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं एक नए अनुभव की तैयारी कर रही हूँ। मैं आप सभी से अपनी सभी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। मेरा दिल इस समय काफी भावुक और कृतज्ञता से भरा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मेरी प्रार्थनाओं को स्वीकार और मेरा मार्गदर्शन करेगा। मिर्जा ने आगे कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। कृपया मुझे अपने विचारों और प्रार्थनाओं में रखें। मैं जीवन की एक बेहद खास यात्रा पर निकल रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं एक बेहतर इंसान के रूप में एक अच्छा दिल और मजबूत ईमान के साथ वापस आऊंगी। बता दें, इससे पहले सानिया मिर्जा उमरा कर चुकी हैं। पिछले साल टेनिस से सन्यास लेने के ठीक बाद सानिया ने अपने करीबी लोगों के साथ उमरा किया था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कई तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें उनके माता-पिता बहन और उनके बेटे नजर आए। उन्होंने कप्तान लिखा था, अल्लहुमुल्लाह। अल्लाह हमारी दुआएं स्वीकार करे। हज और उमरा में क्या अंतर है जो लोग नहीं जानते, उनके लिए हज हर मुसलमान के लिए फर्ज (अनिवार्य) है, जबकि उमरा एक सुन्नत है। सरल शब्दों में, हज जिसे इस्लाम का पांचवां स्तंभ भी कहा जाता है, एक लंबी और धार्मिक यात्रा है जो साल के एक निश्चित समय के दौरान ही की जाती है। दूसरी ओर, उमरा एक छोटी तीर्थयात्रा है जिसे साल के किसी भी समय किया जा सकता है।

फाइनल में 21 साल की पहलवान से हारी अंशु मलिक, रजत पदक से करना पड़ा संतोष

बुडापेस्ट। बर एक रैंक वाले चीनी खिलाड़ी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए, अंशु 53 किग्रा वर्ग में



हांगझोऊ एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता के खिलाफ तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 1-12 से हारी। भारतीय

महिला पहलवान अंशु मलिक फाइनल में अपनी 21 वर्षीय चीनी प्रतिद्वंद्वी कैविसन होंग के कोशल की बराबरी नहीं कर सकीं और यहां बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज के 57 किग्रा वर्ग में रजत पदक से हार गईं। नंबर एक रैंक वाले चीनी खिलाड़ी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए, अंशु 53 किग्रा वर्ग में हांगझोऊ एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता के खिलाफ तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 1-12 से हारी। अंशु ने मोल्दोवा की अनास्तासिया निचिता के खिलाफ 6-5 से जीत हासिल कर सेमीफाइनल में जगह पकड़ी की थी। जब निचिता 5-4 से आगे थी और घड़ी में केवल 19 सेकंड शेष थे, तब अंशु ने किनार पर टेकडाउन करके 6-5 की बढ़त हासिल कर करीबी मुकाबला जीता था। इसके बाद उन्होंने विश्व चैंपियन झंग वयुई को 2-1 से हराकर एक अन्य चीनी खिलाड़ी के साथ खिताबी मुकाबला पक्का किया था। हालांकि, हांग अंशु के खिलाफ नेहरू साबित हुई। उन्होंने शुरुआती राउंड में 4-1 की बढ़त ले ली और दूसरे राउंड में अपनी वलास काम्य की ओर 11 सेकंड शेष रहते हुए अजोय बढ़त ले ली। भारत की अंतिम पंथाल ने इससे पहले 53 किग्रा वर्ग में रजत पदक हासिल करने के लिए कड़ा संघर्ष किया था, जबकि स्टार पहलवान विनेश फोगाट 50 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में चीन की जियांग झू से 0-5 से हार गई थीं।

मैदान में बल्लेबाजों को परेशान करने में बहुत मजा आता है: सौरभ अमेरिका टीम में भारतीय मूल के खिलाड़ी ने किया खुलासा

नई दिल्ली। अमेरिका की पाकिस्तान पर जीत में भारतीय मूल के तेज गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर ने अहम



रोल निभाया है। सौरभ ने सुपर ओवर में शानदार गेंदबाजी कर अमेरिका को जीत दिलाई। सौरभ भारत की ओर से अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल चुका है। सौरभ का कहां कि उन्हें मैदान के बाहर 'कोडिंग' करने और मैदान के अंदर बल्लेबाजों को परेशान करने में बहुत मजा आता है। अमेरिका ने पाकिस्तान को हराकर विश्व कप में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर ने सुपर ओवर में पूर्व चैंपियन पाकिस्तान को लक्ष्य छूने नहीं दिया जिससे अमेरिका टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उल्टफेर करने में सफल रही। इससे सौरभ चर्चा का विषय बन गए। सौरभ ने कहा कि यह केवल एक मैच था जिसमें हमने अच्छा प्रदर्शन किया।

डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड वर्ल्ड कप से बाहर होने की कगार पर

ऑस्ट्रेलिया ने 36 रनों से हराया, अब अगले दोनों मुकाबले जीतने ही होंगे

न्यूयॉर्क, 09 जून (एजेंसियां)।

नई दिल्ली।

वनडे वर्ल्ड कप में 7वें नंबर पर रही इंग्लैंड ने टी-20 वर्ल्ड कप में भी खराब शुरुआत की है। स्कोटलैंड के खिलाफ पहला मैच बारिश में धुलने के बाद टीम को दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 36 रन की हार का सामना करना पड़ा है।

इस हार के बाद डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लिश टीम इस टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर है। अब उसे अगले दोनों मुकाबले जीतने ही होंगे, अगर मैच रिजल्ट इंग्लैंड के फेवर में नहीं रहते तो टीम सुपर-8 से पहले ही बाहर हो जाएगी।

बारबडोस के केनिंगस्टन ओवल में इंग्लैंड के कप्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 201 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड 20 ओवर में 6 विकेट पर 165 रन ही बना सकी। एडम जम्पा प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 4 ओवर पर 28 रन देकर 2 विकेट लिए।

इंग्लैंड को अगले दोनों मैच जीतने ही होंगे - 17वें मैच के बाद इंग्लैंड रूप-बी में चौथे स्थान पर है और टीम के खाते में महज एक अंक है, वहीं ऑस्ट्रेलिया 4, स्कोटलैंड 3 और नामीबिया 2 अंक के साथ क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

यही वह मोमेंट है, जहां डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड टी-20 वर्ल्ड कप का 17वां मैच हार गईं। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर एडम जम्पा ने अपने स्पेल के दूसरे ओवर में जोस बटलर को आउट किया। बटलर 42 रन बनाकर आउट हुए। जम्पा ने पिछले ओवर की पहली बॉल पर फिल



सॉल्ट को आउट करके 73 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप ब्रेक की।

इस जोड़ी ने पिछले ओवर में मिचेल स्टार्क पर 2 छक्के और एक चौका लगाया था। ऐसा लग रहा था कि सीजन का पहला 200+ का स्कोर आसानी से चेज हो जाएगा, लेकिन बटलर के आउट होने के बाद इंग्लिश टीम के विकेट गिरने लगे और टीम 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 165 रन तक ही पहुंच सकी।

ऑस्ट्रेलिया की जीत के हीरो

1. **डेविड वॉर्नर** - ओपनिंग करते हुए 16 बॉल पर 39 रन की अहम पारी खेली। उनकी पारी में 2 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। उन्होंने 243.75 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। हेड के साथ 70 रन की ओपनिंग साझेदारी की।

2. **ट्रैविड हेड** - डेविड वॉर्नर के साथ मिलकर टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाई। 118 गेंद पर 34 रन बनाए। हेड ने 2 चौके और 3 छक्के जमाए। उन्होंने 188.89 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए।

3. **पैट कर्मिस** - अपने कोटे के 4

ओवर में 2 विकेट चटकाए। मिडिल ऑर्डर में पारी संभालने की कोशिश कर रहे मोइन अली और लियम लिंविंगस्टन को आउट किया। कर्मिस ने 5.80 की इकोनॉमी से महज 23 रन खर्च किए।

4. **मार्कस स्टोयनिस** : 8 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की और 3 ओवर में 24 देकर एक विकेट भी लिया। स्टोयनिस ने विल जैक्स को 10 रन के स्कोर पर आउट किया। ऐसे में इंग्लिश टीम ओपनर्स के झटकों से उबर नहीं सकी।

इंग्लैंड की हार की 3 वजहें

ओपनिंग पार्टनरशिप टूटी 202 रन का टारगेट चेज कर रही इंग्लैंड ने 7 ओवर में बिना नुकसान 73 रन बना लिए थे, लेकिन 8वां ओवर डालते आए एडम जम्पा ने पहली बॉल पर फिल सॉल्ट को बोलड कर के ओपनिंग पार्टनरशिप ब्रेक की। इसी टीम की हार की वजह बना। मोइन अली का विकेट मोइन अली ने 15 बॉल पर 166.67 के स्ट्राइक रेट से 25 रन बना लिए थे। वे जॉनी बेयरस्टो के

22वीं सुरेन्द्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैम्पियनशिप पिस्टल में मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने जीते 03 पदक

भोपाल, 09 जून (एजेंसियां)।

म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी ग्राम गौरा भोपाल में 22वीं सुरेन्द्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैम्पियनशिप

(रायफल/पिस्टल) का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय रायफल महासंघ, नई दिल्ली के तकनीकी सहयोग से किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने 01 रजत और 02 कांस्य सहित 03 पदक अर्जित किये

प्रतियोगिता में खिलाड़ी कु. सुनिधि चौहान ने 50 मी. रायफल प्रोन-वूमन स्पर्धा में 01 कांस्य पदक, एवं 50 मी. रायफल प्रोन वूमन स्पर्धा में कु. नुपुर कुमारवत ने 01 रजत और 50 मी. रायफल प्रोन-वूमन टीम स्पर्धा में कु. सुनिधि चौहान, कु. नुपुर कुमारवत और कु. सोम्या रघुवंशी ने 01 कांस्य सहित कुल 03



पदक अर्जित किये हैं। सभी पदक विजेता खिलाड़ियों का खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने उत्साहवर्धन करते हुए बधाई दी है।

उल्लेखनीय है कि म.प्र. राज्य शूटिंग अकादमी परिसर ग्राम गौरा में आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर के लगभग 4000 खिलाड़ी प्रतिभागीता कर रहे हैं। प्रतियोगिता में रायफल और पिस्टल के मुकाबले खेले जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश की बेटे ने रचा इतिहास, यूएफसी फाइट जीतने वाली पहली महिला बनी, डेब्यू में मचाया धमाल

नई दिल्ली, 09 जून (एजेंसियां)।

पूजा तोमर ने यूएफसी मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। वह अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप मैच जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। रविवार को अपने डेब्यू मैच में उन्होंने रेयान अमांडा डॉस सैंटोस को हराकर 30-27, 27-30, 29-28 के विभाजित निर्णय से जीत हासिल की। मुकाबला जीतने के बाद पूजा ने अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा, हमारे भारतीय गीत और भारतीय ध्वज के साथ बाहर निकलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे गर्व महसूस हुआ।

साइक्लोन के नाम से हैं मशहूर - 'साइक्लोन' के नाम से मशहूर पूजा तोमर को भारतीय सफ़िर्ट की सबसे बेहतरीन महिला फाइटर में से एक माना जाता है। 28 वर्षीय खिलाड़ी ने जीत के बाद कहा, यह जीत मेरी जीत नहीं है। यह जीत सभी भारतीय प्रशंसकों और सभी भारतीय सेनानियों के लिए है। इससे पहले कि हर कोई सोचता कि भारतीय सेनानी कहीं नहीं टिकते। मैंने केवल यही सोचा कि मुझे जीतना है और दुनिया को दिखाना है कि भारतीय सेनानी हारे नहीं हैं।

कोन है पूजा तोमर - उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बुढाना गांव में जन्मी तोमर



पिछले साल यूएफसी के साथ अनुबंध हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर बनीं। पूर्व राष्ट्रीय वुशू चैंपियन तोमर ने मैट्रिक्स फाइटर नाइट और वन चैंपियनशिप सहित अन्य चैंपियनशिप में शामिल हो चुकी हैं। लगातार चार हार के बाद, उन्होंने वन चैंपियनशिप छोड़ दी और 2021 में मैट्रिक्स फाइटर नाइट में शामिल हो

गईं। उन्होंने एमएफएन में चार मुकाबले जीते, आखिरी बार जुलाई में रूस की अनास्तासिया फेओफानोवा के खिलाफ खिताब का बचाव किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह इंडोनेशिया के बाली में सोमा फाइटर क्लब में ट्रेनिंग करती हैं, जहां अंशुल चुबली ने यूएफसी फाइटर्स के लिए ट्रेनिंग ली थी।

वेस्टइंडीज की टी-20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी जीत युगांडा को 134 रन से हराया, अकील होसेन ने 5 विकेट झटकते

नई दिल्ली, 09 जून (एजेंसियां)।

आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2024 के 18वें मैच में वेस्टइंडीज ने युगांडा को 134 रन से हरा दिया। टी-20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज की रन के लिहाज से यह सबसे बड़ी जीत है। वहीं टूर्नामेंट के इतिहास की यह दूसरी सबसे बड़ी जीत है। सबसे बड़ी जीत श्रीलंका के नाम दर्ज है। टीम ने 2007 टी-20 वर्ल्ड कप में केन्या को 172 रन से हराया था। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतने के बाद युगांडा को 174 रन का टारगेट दिया था। जवाब में युगांडा की टीम 12 ओवर में 39 रन पर ही ऑलआउट हो गई। युगांडा ने टी-20 के सबसे छोटे स्कोर की बराबरी की है। इससे पहले 2014 में नीदरलैंड भी श्रीलंका के खिलाफ 39 रन पर ऑलआउट हो गया था। वेस्टइंडीज के लिए अकील होसेन ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके। उन्होंने इस दौरान महज 11 रन दिए। टी-20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज के लिए यह

वेस्ट बॉलिंग फिगर है। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वेस्टइंडीज इस वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत के दूसरे नंबर पर है। इस रण्य में अफगानिस्तान टॉप पर है। दोनों टीमों ने लगातार दोनों मैच जीते हैं और दोनों के 4-4 पॉइंट्स हैं, लेकिन अफगान टीम बेहतर रन रेट के कारण टॉप पर है।



मैच के हीरोज

अलजारी जोसेफ : वेस्टइंडीज की ओर से होसेन के अलावा जोसेफ ने दो विकेट झटके। उन्होंने 3 ओवर में 2.00 की इकोनॉमी से महज 6 रन दिए। उन्होंने ब्रायन मसाबा और फ्रैंक नसुबुगा

को आउट किया।

जॉनसन चार्ल्स : विंडीज के टॉप स्कोरर चार्ल्स रहे। उन्होंने 42 गेंदों पर 44 रन बनाए। उन्होंने पहले विकेट के लिए ब्रैंडन किंग के साथ 24 बॉल पर 41 रन की साझेदारी की। यह मैच की सबसे बड़ी पार्टनरशिप रही।

आंद्रे रसेल : वेस्टइंडीज के पारी के अंत के ओवरों में आंद्रे रसेल ने 17 गेंदों पर छह चौकों की मदद से नाबाद 30 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 176.47 का रहा।

3. **फाइटर ऑफ द मैच** - युगांडा के कप्तान ब्रायन मसाबा फाइटर ऑफ द मैच रहे। मसाबा ने अपने स्पेल में 2 विकेट झटके, लेकिन अपनी टीम

को जीत नहीं दिला सके। उन्होंने विंडीज कप्तान रोवमैन पॉवेल और निकोलस पूरन को पवेलियन भेजा।

वेस्टइंडीज की पारी : जॉनसन चार्ल्स ने 42 गेंदों पर 44 रन बनाए वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बॉटिंग का फैसला लिया। पहले बॉटिंग करते हुए वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 173 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज के लिए जॉनसन चार्ल्स ने 42 गेंदों पर 44 रन बनाए, जबकि अंत के ओवरों में रसेल ने 17 गेंदों पर छह चौकों की मदद से नाबाद 30 रन बनाए। युगांडा के लिए कप्तान ब्रायन मसाबा ने 31 रन देकर 2 विकेट झटके। युगांडा की पारी : टीम के 10 खिलाड़ी दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच सके। 174 रनों के बड़े टारगेट का पीछा करने उतरी युगांडा की शुरुआत खराब रही। पहला विकेट पहले ही ओवर में गिर गया। युगांडा के 10 खिलाड़ी दहाई के आंकड़े तक

नहीं पहुंच सके। जुमा मियागी ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 13 रन बनाए। होसेन के अलावा अलजारी जोसेफ को 2 सफलताएं मिलीं। रोमारियो शेफर्ड, आंद्रे रसेल और गुडकेश मोती को 1-1 विकेट मिला।

दोनों टीमों की प्लेइंग-11 वेस्टइंडीज : रोवमैन पॉवेल (कप्तान), ब्रैंडन किंग, जॉनसन चार्ल्स, निकोलस पूरन (विकेट कीपर), रोस्टन चेज, शेरेफन रदरफोर्ड, आंद्रे रसेल, रोमारियो शेफर्ड, अकील होसेन, अलजारी जोसेफ और गुडकेश मोती। युगांडा : ब्रायन मसाबा (कप्तान), साइमन सेसाजी (विकेट कीपर), रोजर मुकासा, रॉबिन्सन ओबुया, रॉबिन्सन ओबुया, रियाजत अली शाह, अल्पेश रामजानी, दिनेश नकरानी, जुमा मियागी, केथ वेंसावा, कॉमससन क्युबुता और फ्रैंक नसुबुगा।

बीते सप्ताह शेयर बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला, संसेक्स 76,693 पर और निफ्टी 23,290.15 पर बंद

मुंबई, 09 जून (एजेंसियां)।

बीते सप्ताह घरेलू शेयर बाजार में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। पहले बाजार में बड़ी गिरावट आई, उसके बाद शानदार रिकवरी देखने को मिली थी। बाजार सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन शुक्रवार को उछल के साथ बंद हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के वृद्धि दर के अनुमान को सात प्रतिशत से बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया है, जिसके चलते बाजार में यह तेजी देखने को मिली थी। बीते सप्ताह के

पांच कारोबारी दिनों पर नजर डालें तो लोकसभा चुनाव के परिणाम से एक दिन पहले और एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद सोमवार को शेयर बाजार जमकर झुमा। संसेक्स 1859.88 अंकों की बढ़त के साथ 75,821.19 के रिकॉर्ड स्तर पर खुला और 2,507.47 अंक उछलकर 76,468.78 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 603.85 अंकों की उछल के साथ 23,134.55 पर खुला और 733.21 अंक मजबूत होकर 23,263.90 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। मंगलवार को संसेक्स 1,700 अंक बढ़कर 76,794.06 के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर

खुला और 1,618.85 अंक की तेजी के साथ 76,693.36 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 483 अंकों तक बढ़कर खुला और 468.75 अंक बढ़कर 23,290.15 के स्तर पर बंद हुआ। बुधवार को लोकसभा चुनाव के सभी सीटों के रिजल्ट आने के बाद शेयर मार्केट में बहार लौट आई है। बीएसई संसेक्स एक बार फिर 73000 के पार खुला और 2,303 अंक की तेजी के साथ 74,382 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 22128 से के दिन के कारोबार की शुरुआत की और 735 अंक बढ़कर 22,620.35 के स्तर पर बंद हुआ। गुरुवार को संसेक्स 400.42 अंकों

की बढ़त के साथ 74,744.30 के स्तर पर खुला और 692.27 अंक मजबूत होकर 75,074.51 पर बंद हुआ। निफ्टी 122.31 अंक मजबूत होकर 22,742.65 के स्तर पर खुला और 201.06 अंक बढ़कर 22,821.40 पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजार ने आरबीआई की ओर से रेपो रेट के एलान से पहले 7 जून 2024 शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ अपने कामकाज की शुरुआत की। संसेक्स 254.53 अंक बढ़कर 75,329.04 अंक पर खुला और 1,618.85 अंक की तेजी के साथ 76,693.36 अंक पर बंद हुआ।

न्यूज़ ब्रीफ

खराब सिबिल मुश्किल करेगा कर्ज लेना, क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाए रखने के लिए अपनाएं ये तरीके



नई दिल्ली। किसी व्यक्ति की कर्ज लेने के लिए योग्यता निर्धारित करने में क्रेडिट स्कोर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे सिबिल स्कोर भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कर्ज लेने वाले बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को क्रेडिट स्कोर से अपने संभावित ग्राहक की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। इसी स्कोर के आधार तय किया जाता है कि संभावित ग्राहक को कर्ज, क्रेडिट कार्ड या इससे जुड़ी अन्य सेवाएं दी जाएं या नहीं। किसी भी व्यक्ति के लिए अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाए रखना जरूरी है। इससे लोन, क्रेडिट कार्ड इत्यादि मिलने में आसानी होती है। आइए हम आपको बताते हैं क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाए रखने में मदद करने वाले कुछ उपाय। 300-900 अंक की रेंज में होता है क्रेडिट स्कोर भारत में। क्रेडिट स्कोर की शुरुआत 300 अंक से होती है और यह अधिकतम 900 अंक तक होता है। 300-549 अंक तक के क्रेडिट स्कोर को खराब माना जाता है। सामान्यतया इस स्कोर पर कर्ज नहीं मिल पाता है। 550 से 649 तक के क्रेडिट स्कोर को औसत माना जाता है। इस क्रेडिट स्कोर पर कर्ज मिल सकता है लेकिन ब्याज की दर ज्यादा हो सकती है। 650 से 749 के स्कोर का अच्छा माना जाता है। इस क्रेडिट स्कोर वालों को सामान्य ब्याज दरों पर कर्ज मिल सकता है। 750 से 799 के क्रेडिट स्कोर को काफी अच्छा माना जाता है और इस स्कोर वालों को आकर्षक ब्याज दर पर लोन मिल सकता है। 800 से 900 के क्रेडिट स्कोर को उत्कृष्ट माना जाता है और इनको बाजार से कम दर पर लोन मिल सकता है। हालांकि, कर्ज लेने में क्रेडिट स्कोर के अलावा उम्र, लोजागार की स्थिति, आय या वेतन इत्यादि कारकों की भी महत्वपूर्ण होती है। चार क्रेडिट ब्यूरो तैयार करते हैं स्कोर भारत में वे चार क्रेडिट ब्यूरो क्रेडिट स्कोर तैयार करते हैं। इनमें इंडिकॉफिवस, ट्रांसयूनियन सिबिल, एक्सपेरियन और सीआरआईएफ हाइमार्क शामिल हैं। यह क्रेडिट ब्यूरो पुनर्भूतगता, क्रेडिट उपयोगिता, कर्ज लेने के पैटर्न और क्रेडिट हिस्ट्री के आधार पर क्रेडिट स्कोर तय करते हैं। क्रेडिट स्कोर बेहतर बनाए रखने के तरीके अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल भरें और लोन की मासिक किस्त समय पर जमा करें।

मुकेश अंबानी की रिलायंस का बड़ा डंका, टाटा की कंपनी ने भी खूब कूटा मुनाफा

नई दिल्ली। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच कंपनियों के बाजार मूल्यांकन में भी अंतर आया है। पिछले सप्ताह 10 सबसे मूल्यवान घरेलू कंपनियों में आठ ने अपने बाजार मूल्यांकन में कुल मिलाकर 3.28 लाख करोड़ रुपये जोड़े। इस दौरान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हिंदुस्तान यूनिटीवर और रिलायंस इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। इस उतार-चढ़ाव से भरे सप्ताह में बीएसई संसेक्स 2,732.05 अंक या 3.69 प्रतिशत उछल गया। शीर्ष 10 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, इकोसिस, हिंदुस्तान यूनिटीवर (एचयूएल) और आईटीसी को लाभ हुआ। इन कंपनियों ने अपने बाजार मूल्यांकन में कुल 3,28,116.58 करोड़ रुपये जोड़े। इन कंपनियों को हुआ नुकसान शीर्ष 10 कंपनियों में भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के बाजार मूल्यांकन में गिरावट हुई।

अडानी एयरपोर्ट्स ने वित्त वर्ष 24 में समाला एक मिलियन टन से ज्यादा कार्गो



मुंबई। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (एएएफएल) की ओर से कहा गया कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी ने एक मिलियन टन एयर कार्गो संभाला है। इसमें सालाना आधार पर 7 प्रतिशत की बढ़त देखने को मिली है। पिछले वित्त वर्ष कंपनी ने 9,44,912 मीट्रिक टन कार्गो संभाला गया था। अदानी ग्रुप देश में सात एयरपोर्ट्स संभालता है और वित्त वर्ष 2023-24 में 10 लाख मीट्रिक टन कार्गो संभालने के साथ कंपनी का मार्केट शेयर 30.1 प्रतिशत हो गया है। एएएफएल के सीईओ अरुण बंसल ने कहा कि अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड में हम लगातार संयोजन के नए बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। कार्गो टर्मिनल की ओर से एक मिलियन टन का बड़ा माइलस्टोन हासिल किया गया है। कंपनी ने कहा कि डैडल किए गए सभी कार्गो में 65 प्रतिशत अंतरराष्ट्रीय था।

मुथूट फिनकोर्प ने शाहरुख खान के साथ बुक माई गोल्ड लोन अभियान शुरू किया

मुंबई, 09 जून (एजेंसियां)।

नए ब्रांड एंबेसडर के साथ पहला अभियान इस बात का प्रचार-प्रसार करना है कि कैसे नई पहल गोल्ड लोन को ग्राहकों के लिए अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाने में मदद करती है मुथूट पम्पाचन समूह (मुथूट ब्लू) की प्रमुख कंपनी मुथूट फिनकोर्प लिमिटेड (एमएफएल) ने शाहरुख खान के साथ अपना बुक माई गोल्ड लोन अभियान शुरू किया है। यह अभूतपूर्व अभियान भारत में अपनी तरह की पहली सेवा पेश करता है: कहीं से भी, कभी भी, तुरंत गोल्ड लोन बुक करें। हाल ही में लॉन्च की गई सुविधा ग्राहकों को एक साधारण मिस्ट कॉल के साथ ऋण शुरू करने की अनुमति देती है, जो उन्नत तकनीक को असाधारण ग्राहक सेवा के साथ एकीकृत करती है। यह अनूठी सेवा गोल्ड लोन को उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाती है। शाहरुख खान के साथ साझेदारी करते हुए, बुक माई गोल्ड लोन अभियान हमारे लिए एक बड़ी छलांग है। बुक माई गोल्ड लोन सेवा के साथ हमारा लक्ष्य अपने सभी उपभोक्ताओं के लिए जीवन को आसान बनाना है, जिसके लिए गोल्ड लोन हमारी किसी भी शाखा से या उनके घर से लिया जा सकता है। हमारे लोन हमारे ग्राहकों को उनकी दैनिक आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाते हैं। मुथूट फिनकोर्प के बुक माई गोल्ड लोन अभियान की संकल्पना और रचना हवास वर्ल्डवाइड इंडिया (क्रिप्टिव) द्वारा की गई है और हवास मीडिया इंडिया (मीडिया) द्वारा निष्पादित की गई है और इसमें शाहरुख खान द्वारा अभिनीत एक आकर्षक टेलीविजन विज्ञापन दिखाया गया है। दर्शकों को आकांक्षाओं के एक क्रम से गुज़ारता है - व्यवसाय शुरू करना, विदेश में पढ़ाई करना और नई



कार खरीदना। जैसे-जैसे प्रत्येक दृश्य सामने आता है, शाहरुख खान सुक्ष्मता से मुझे कॉल करें इशारे को शामिल करते हैं, जो एक सरल समाधान की ओर इशारा करता है। अंत में, खान अपने मुझे कॉल करें इशारे के पीछे का उतर बताते हैं - मुथूट फिनकोर्प की बुक माई गोल्ड लोन सेवा।

भारत में पहली बार शुरू की गई यह सेवा आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए 80869 80869 पर मिस्ट कॉल करने जितना आसान गोल्ड लोन प्राप्त करना है। इसके अलावा, मुथूट फिनकोर्प ने शाहरुख खान के साथ नई पहल को बढ़ावा देने के लिए एक संगीत वीडियो भी जारी किया है। हवास वर्ल्डवाइड इंडिया की संयुक्त एमडी और चीफ क्रिएटिव ऑफिसर अनुपमा रामास्वामी ने कहा, हमने मिस्ट कॉल के साथ बुक योर गोल्ड लोन की अपनी अनूठी सुविधा के लिए एक खास तरीका अपनाया और शाहरुख खान से दुनिया को इसके बारे में बताने को कहा। और

हमेशा की तरह, उन्होंने इसे एक अनूठ मोड़ दिया। हवास मीडिया नेटवर्क के सीईओ मोहित जोशी ने कहा, हम मुथूट फिनकोर्प और उनके नए ब्रांड एंबेसडर शाहरुख खान के साथ इस अभियान का हिस्सा बनकर उत्साहित हैं। लोगों के लिए वित्तीय पहुँच को आसान बनाने के लिए मुथूट फिनकोर्प का निरंतर नवाचार सराहनीय है और हमें यकीन है कि बहुभाषी अभियान देश भर में बड़े दर्शकों से सार्थक रूप से जुड़ेगा। यह अभियान हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, मराठी और गुजराती में प्रसारित किया जाएगा। इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म, टेलीविजन, प्रिंट और ऑन-ग्राउंड एक्टिवेशन शामिल होंगे, जिससे व्यापक पहुंच और अखिल भारतीय प्रभाव सुनिश्चित होगा। मुथूट फिनकोर्प ने हाल ही में वित्त वर्ष 24 में 61,703.26 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड-तोड़ समेकित ऋण वितरण हासिल किया। बुक माई गोल्ड लोन के लॉन्च के साथ, कंपनी ऋण देने के परिदृश्य को सरल बनाने में एक

कम समय के निवेश में होगा तगड़ा मुनाफा, एसबीआई की सर्वोत्तम स्कीम में इन ग्राहकों को मिल रहा ज्यादा फायदा

नई दिल्ली, 09 जून (एजेंसियां)।

रिटायरमेंट हो चुका है और अभी-अभी पीएफ का पैसा आया है तो ये जानकारी आपके काम की हो सकती है। यह किसी बेहतर जगह निवेश का मौका हो सकता है। क्या आप जानते हैं देश का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई अपने ग्राहकों के लिए कम समय के निवेश वाली योजनाएँ भी पेश करता है।

यानी अगर आप अपना पैसा 1 या 2 साल से ज्यादा निवेश नहीं करना चाहते हैं तो एसबीआई की एक खास योजना आपके लिए ही है। क्या है एसबीआई सर्वोत्तम स्कीम दरअसल, हम यहां एसबीआई की सर्वोत्तम स्कीम की बात कर रहे हैं। इस स्कीम में सीनियर सिटिजन ग्राहकों को ज्यादा ब्याज का फायदा मिलता है। निवेश 1 साल या दो साल के लिए किया जा सकता है। इस स्कीम में निवेश के बाद पैसा तय समय के बाद ही निकाला जा सकता है। एसबीआई सर्वोत्तम स्कीम में कितना कर सकते हैं निवेश एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट



पर दी गई जानकारी के मुताबिक, इस स्कीम में ज्यादा 1 करोड़ रुपये से ज्यादा रुपये का निवेश कर सकते हैं। हालांकि, ग्राहकों को 2 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा का निवेश करने पर ब्याज की अलग दर ऑफर की जाती है। निवेश की राशि (1 करोड़ रुपये से ज्यादा और 2 करोड़ रुपये से कम) 1 साल के लिए निवेश करते हैं तो सीनियर सिटिजन ग्राहकों के लिए ब्याज की दर 7.60 प्रतिशत और सालाना यील्ड 7.82 प्रतिशत है। 12 साल के लिए निवेश करते हैं तो सीनियर सिटिजन ग्राहकों के लिए ब्याज की दर 7.90 प्रतिशत और सालाना यील्ड 8.14 प्रतिशत है।

नरेंद्र मोदी तीसरी ...

ये समिति राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संस्थानों या निकायों में अधिकारियों की नियुक्ति पर भी फैसला लेती है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के पहले उन सांसदों के साथ चाय पर चर्चा की, जिन्हें मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होना था। इस बैठक में जिन लोगों को बुलाया गया उनके बारे में पहले ही माम लिया गया था कि उन्हें मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा रहा है। सबसे ज्यादा मंत्री बिहार राज्य से हुए। भाजपा के साथ ही जेडीयू, हम और एलजेपी (राम विलास) को भी मंत्रालय में शामिल किया गया। बिना चुनाव लड़े रामदास अठावले एक बार फिर मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। चुनाव हारने वाले भी कई नेता मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। पिछली सरकार के कई अहम चेहरे इस बार मंत्रिमंडल में नहीं दिखने वाले हैं, उनमें स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर जैसे बड़े नाम भी हैं। स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव हार गईं। अनुराग ठाकुर चुनाव जीते, लेकिन उन्हें संगठन और हिमाचल प्रदेश पर फोकस करने के लिए आवास पर चाय बैठक में बुलाया, उनमें राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, मनोहर लाल खट्टर, पीयूष गोयल, धर्मेश प्रधान अर्जुन राम मेघवाल, सर्वानंद सोनोवाल, प्रह्लाद जोशी, के. अन्नमल्लाई, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनोहर लाल खट्टर, मनसूख मंडाविया, अश्विनी वैष्णव, पीयूष गोयल,

किरेन रिजिजू, रक्षा खडसे, कमलजीत सेहरावत, राव इंद्रजीत सिंह, एस जयशंकर, गिरिराज सिंह, बंडी संजय, सुरेश गोपी, जी किशन रेड्डी, शोभा करंदलाजे, हर्ष मलहोत्रा के नाम हैं। एनडीए की अहम सहयोगी पार्टियों से एलजेपी के चिराग पासवान, जेडीएस से एचडी कुमारस्वामी, टीडीपी के चंद्रशेखर पेमासनी और राम मोहन नायडू, जेडीयू के रामनाथ ठाकुर, ललन सिंह, शिवसेना के प्रताप राव जाधव, आजसू के चंद्रशेखर चौधरी, आरएलडी के जयंत चौधरी, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, आरपीआई के रामदास अठावले और हिन्दुस्तान आवाज मोर्चा के जीतराम मांडी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल मंत्रियों को विभाग तो नहीं मिले हैं, लेकिन कुछ मंत्रालय पहले से ही तय हैं। उसमें नितिन गडकरी का मंत्रालय, एस जयशंकर का विदेश मंत्रालय, किरेन रिजिजू का विज्ञान मंत्रालय प्रमुख है। वहीं, शिवराज सिंह चौहान और राजनाथ सिंह को बड़े मंत्रालय मिल सकते हैं। माना जा रहा है कि अमित शाह के पास पहले की तरह ही गृह मंत्रालय रहने वाला है। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। मोदी 3.0 का मंत्रिमंडल पूरी तरह समावेशी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम से लेकर ओड़ीशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु को मंत्री मिलने वाले हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों का भी मंत्रिमंडल में हिस्सा है। इस बार दक्षिण के तकरिबन सभी बड़े राज्यों से सांसदों को मंत्री पद दिया जा रहा है। के अन्नमल्लाई ने जिस तरह से तमिलनाडु में भाजपा को आगे ले जाने का प्रयास किया, उन्हें भी उसका इनाम मिला है।

पीएम मोदी ने मस्क से कहा, बिजनेस पार्टनर्स को मजबूत कारोबारी माहौल देगा भारत

नई दिल्ली, 09 जून (एजेंसियां)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देने के लिए टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रतिभाशाली युवा और स्थिर लोकतांत्रिक राजनीति सभी बिजनेस पार्टनर्स के लिए सुरक्षित कारोबारी माहौल प्रदान करेगी।

अरबपति एलन मस्क ने प्रधानमंत्री को तीसरी बार फिर से चुने जाने पर बधाई दी थी। मस्क ने बताया कि उनकी कंपनियां जल्द ही भारत में निवेश करने की सोच रही हैं। एलन मस्क की बधाई पर पीएम मोदी ने कहा, आपके बधाई के लिए शुक्रिया एलन मस्क। पीएम मोदी ने कहा, देश के प्रतिभाशाली युवा, हमारी जनसांख्यिकी, पूर्वानुमानित नीतियां और स्थिर लोकतंत्र सभी बिजनेस पार्टनर्स के लिए कारोबारी माहौल प्रदान करना जारी रखेंगे। पीएम मोदी को बधाई देने के लिए मस्क ने एक्स पर



लिखा था, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव में आपके जीत पर बधाई, मुझे उम्मीद है कि मेरी कंपनियां भारत में अच्छे काम करेंगी। स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ के 21 और 22 अप्रैल को भारत आने और पीएम मोदी से मिलने की उम्मीद है। हालांकि बाद में उन्होंने काम का हवाला देते

हुए अपनी इस यात्रा को स्थगित कर दिया। वहीं मस्क ने बाद में कहा कि वह इस साल के अंत में भारत आ सकते हैं। जून 2023 में मस्क ने अमेरिका में पीएम मोदी से मुलाकात की थी। तब टेक अरबपति ने विश्वास जताया था कि टेस्ला जल्द ही सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलैंक के साथ भारतीय बाजार में प्रवेश करेगी।

टेस्ला के भारत में अपनी विनिर्माण इकाई स्थापित करने और बड़े पैमाने पर निवेश करने की उम्मीद है। कार निर्माता ने 2023 में भारत सरकार से देश में अपने वाहनों के आयात पर शुल्क में कटौती करने के लिए कहा था। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी और अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया। वह लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए तैयार हैं। वह शपथ लेंगे। लोकसभा चुनावों में एनडीए ने 543 सीटों में से 293 सीटें जीती हैं।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

केरल में पहली बार कमल खिलाने वाले सुरेश गोपी को भी मोदी सरकार में मंत्री पद मिला है। इनके अलावा गठबंधन के तहत जीवन राम मांडी, रालोद प्रमुख जयंत चौधरी, अपना दल (सोनेलाल) की नेता अनुप्रिया पटेल, जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी को भी मंत्री बनाया गया। लोजपा (रामविलास) के नेता चिराग पासवान को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है।

अब बड़े ...

भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में इसे मुद्दा बनाया था और चुनाव जीतने के बाद इसे लागू भी कर दिया। अब भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के तीसरे कार्यकाल में समान नागरिक संहिता को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए सहयोगी दलों का समर्थन जुटाना बड़ी चुनौती होगी। यूसीसी के मामले में जयदू ने भी कहा है कि इसमें सबकी राय जरूरी है। नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में भारत की वैश्विक नेता के रूप में स्थिति को मजबूत करने पर जोर देते रहे हैं। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी की दिदेश नीति का लक्ष्य होगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत की लंबे समय से प्रतीक्षित स्थायी सदस्यता को साकार करना। विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता पर जोर देगी, लेकिन इस प्रयास में संयुक्त राष्ट्र में सुधार भी शामिल है। यूएनएससी में सुधार करना एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि स्थायी सदस्य चीन अक्सर भारत को इसमें शामिल करने का विरोध करता आया है।

तीसरे कार्यकाल में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत को बड़े आकार में देखा जा सकता है। नरेंद्र मोदी चुनावी कार्यक्रमों में यह कहते रहे हैं कि तीसरे कार्यकाल में बड़े फैसलों के लिए मोदी की गारंटी पूरी की जाएगी। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने भविष्य के लिए अपने विजन को रेखांकित किया था। मोदी ने आयुष्मान भारत के तहत प्रदान की जाने वाली मुक्त स्वास्थ्य सेवा तक अभूतपूर्व पहुंच पर जोर दिया। इसके अलावा भाजपा के 2024 के घोषणापत्र में आयुष्मान भारत के कवरेज को 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने के लिए आगे बढ़ाने का भी वादा किया गया है।

चीन के ...

नेताओं को विशेष अतिथि के रूप में सादर आमंत्रित किया गया। इसे पड़ोसी देशों के प्रति भारत की प्राथमिकता के तौर पर देखा जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान को प्राथमिकता दी गई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइजु, सेनेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल देहल प्रचद और भूटान के प्रधानमंत्री शेरांग तोंगे प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।

पवन कल्याण की ओजी से टकराएगी नंदमुरी बालकृष्ण की एनबीके 109?



इस साल साउथ की कई बहुप्रतीक्षित फिल्मों रिलीज होने वाली हैं, जो दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करेंगी। इस लिस्ट में बड़े सितारों की फिल्में शामिल हैं। प्रभास की कल्कि 2898 एडी, जूनियर एनटीआर की देवरा, अल्लु अर्जुन की पुष्पा 2: द रूल, राम चरण की गेम चेंजर, पवन कल्याण की दे कॉल हिम ओजी और नंदमुरी बालकृष्ण की एनबीके 109 सहित कई बहुप्रतीक्षित फिल्मों सिनेमाघरों में धमाल

मचाने के लिए तैयार हैं। ऐसे में कई फिल्मों रिलीज होने के कारण सभी फिल्मों के निर्माता इस कोशिश में हैं कि उनकी फिल्म अन्य किसी फिल्म से क्लैश न हो। हालांकि, पवन कल्याण की ओजी और नंदमुरी बालकृष्ण की एनबीके 109 के बीच टकराव होने की संभावना बनी हुई है। फिल्मों के निर्माता अन्य किसी फिल्म की प्रमुख रिलीज के साथ टकराव से बचने के लिए रिलीज की तारीखों को सावधानीपूर्वक तय कर रहे हैं। ओजी, गेम चेंजर और एनबीके 109 जैसी फिल्मों ने अभी तक अपनी रिलीज की तारीख तय नहीं की है। ऐसे में अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि ओजी और एनबीके 109 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है, जो साल के अंत में दर्शकों का मनोरंजन

दिसंबर में होगा कड़ा मुकाबला!

करंगी। शुरुआत में 27 सितंबर, 2024 को रिलीज होने वाली ओजी को अब दिसंबर तक स्थगित कर दिया गया है, जो कि बालकृष्ण-

बाँबी कोल्लू की एनबीके 109 की संभावित रिलीज के साथ मेल खाती है। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों फिल्मों



दिसंबर में रिलीज होने के लिए तय हैं तो ऐसे में सिनेमाघरों में इन फिल्मों के बीच टकराव देखने को मिल सकता है।

अगर दोनों फिल्मों वाकई एक ही महीने में रिलीज होती हैं तो यह दोनों अभिनेताओं के प्रशंसकों के लिए एक रोमांचक समय होगा। अब यह उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर में अन्य रिलीज होने वाली फिल्मों को नई तारीखों के साथ रिलीज किया जाएगा। इनमें नागा चैतन्य की थंडेल और नितिन की रॉबिनहुड शामिल हैं। हालांकि, ये मुद्दे फिलहाल खबरों के आधार पर हैं। इस बारे में निर्माताओं की ओर से आधिकारिक जानकारी आने का इंतजार है।

कार्ड सेट पहनकर जाह्नवी कपूर ने शेयर किया ग्लैम लुक

बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर हमेशा अपने बोल्ट और स्टाइलिश लुक से फैंस का सारा ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। एक्ट्रेस जब भी अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं तो फैंस उनकी तस्वीरों पर अक्सर अपना दिल हार जाते हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने लेटेस्ट एलिगेंट लुक में तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में उनकी कातिलाना अदाओं ने फैंस का सारा अटेंशन अपनी ओर खींच लिया है। एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर आए दिन अपनी फोटोज और वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर अक्सर फैंस के बीच लाइमलाइट बटोरती रहती हैं। एक्ट्रेस जब भी अपनी तस्वीरें इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट करती हैं तो फैंस उनकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते हैं। हाल ही में जाह्नवी कपूर ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं, जिसमें वो बेहद ही गॉर्जियस नजर आ रही हैं। साथ ही फैंस भी उनके बोल्ट लुक को देखकर बेकाबू हो गए हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर ने सैफरन कलर का कार्ड सेट पहना हुआ है। साथ ही वो कैमरे के सामने एक से बढ़कर एक सिजलिंग अंदाज में पोज देती हुई नजर आ रही हैं। गले में एक्सेसरी, ओपन हेयर को स्टाइलिश लुक देकर और साथ ही स्लेम मेकअप कर के एक्ट्रेस ने अपने आउटलुक को कंप्लीट किया है। बता दें कि एक्ट्रेस सोशल मीडिया लवर हैं। वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग लिस्ट काफी ज्यादा तगड़ी है। एक्ट्रेस की फिल्म की बात करें तो हाल ही में उनकी मिस्टर एंड मिसेज माही रिलीज हुई है। इस फिल्म में उनकी और राजकुमार रॉव की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है। बता दें कि हमेशा से ही अपने लुक से सोशल मीडिया पर कहर बरपाती हैं। उनका हर एक स्टनिंग लुक इंटरनेट पर आते ही फैंस के बीच तेजी से वायरल होने लगता है।



बॉक्स ऑफिस पर फैली मुंज्या की दहशत

ओपनिंग डे पर कर डाली छप्परफाड़ कमाई



शरवरी वाघ की हॉर-कॉमेडी फिल्म मुंज्या के ट्रेलर के बाद से फिल्म की काफी चर्चा हो रही थी। वहीं इस शुक्रवार को मुंज्या ने सिनेमाघरों में दस्तक दी। मुंज्या को पहले दिन दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इसी के साथ फिल्म ने शानदार ओपनिंग भी की है। चलिए यहां जानते हैं मुंज्या ने रिलीज के पहले दिन कितने करोड़ का कारोबार किया है? आदित्य सरपोतदार द्वारा निर्देशित और दिनेश विजान द्वारा मुंज्या के मैडॉक सुपरनेचुरल यूनिवर्स की स्त्री, रूही और भेडिया के बाद चौथी फिल्म है। ये मुंज्या की कथा के इर्द-गिर्द घूमती है जो भारतीय लोककथाओं से प्रेरित है।

फिल्म के ट्रेलर को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और अब मेकर्स ने इस फिल्म को लगभग 1600 स्क्रीन पर रिलीज किया है। हालांकि फिल्म के लिए बज अपने पीक पर नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि फिल्म पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के साथ अच्छी दर्शक संख्या हासिल कर सकती है। वहीं फिल्म की ओपनिंग काफी शानदार रही है। दरअसल इसकी पहले दिन की कमाई के आंकड़े आ गए हैं। मैडॉक फिल्म ने अपने इंस्टा अकाउंट पर मुंज्या के ओपनिंग डे के कलेक्शन के आंकड़े शेयर किए हैं। बता दें

कि मैडॉक फिल्म द्वारा शेयर की गई पोस्ट के मुताबिक मुंज्या ने रिलीज के पहले दिन 4121 करोड़ का कलेक्शन किया है। बता दें कि शरवरी वाघ की मुंज्या ने रिलीज के पहले दिन 4 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया और इसी के साथ ये फिल्म एक्ट्रेस के करियर की सबसे बड़ी ओपनर बन गई है।


बता दें कि शरवरी की इससे पहले 2021 में आई फिल्म बंटी और बबली 2 ने रिलीज के पहले दिन 2160 करोड़ का कलेक्शन किया था। मुंज्या की ड्यूरेन 2 घंटे 3 मिनट है और इसे सेंसर बोर्ड से यू/ए सर्टिफिकेट मिला है। बता दें कि अभी तक, मुंज्या को बॉक्स ऑफिस पर मिस्टर एंड मिसेज माही को छोड़कर किसी और फिल्म से मुकाबला नहीं करना पड़ रहा है और रिलीज के पहले ही दिन मुंज्या ने राजकुमार राव और जाह्नवी कपूर की मिस्टर एंड मिसेज माही को मात दे दी है। अब देखन वाली बात होगी कि वीकेंड पर ये हॉर कॉमेडी फिल्म कितना कलेक्शन कर पाती है। मुंज्या की स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में शरवरी वाघ, मोना सिंह और अभय वर्मा सहित कई कलाकारों ने अहम रोल प्ले किया है।

कल्कि 2898 एडी से अमिताभ बच्चन की पहली झलक आई सामने

कल्कि 2898 एडी इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। यह एक साइंस फिक्शन फिल्म है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इस फिल्म के लेखन और निर्देशन की जिम्मेदारी नाग अश्विन के ऊपर है। वैजयंती मूवीज द्वारा निर्मित यह फिल्म भारत की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। वहीं फिल्म के नया पोस्टर जारी कर दिया गया है, जिसके बाद से फैंस की उत्सुकता इस फिल्म के लिए और अधिक बढ़ गई है। निर्माता फिल्म को लेकर लगातार कोई ना कोई जानकारी साझा कर रहे हैं। कुछ ही देर पहले मेगास्टार अमिताभ बच्चन का अश्वत्थामा अवतार वाला एक नया पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। फिल्म के इस पोस्टर में अमिताभ बच्चन अपने हाथ में अस्त्र को थामे और माथे पर एक दिव्य मणि पहने हुए दिलचस्प अवतार में नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वह किसी युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। वह युद्ध के मैदान के बीच में खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनके आस-पास कुछ लोग जमीन पर पड़े हुए हैं, उनके पीछे कोई बड़ा वाहन भी दिखाई दे रहा है।

पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा, इंतजार जल्द ही खत्म होगा, फिल्म का ट्रेलर तीन दिनों में रिलीज होने वाला है। 10 जून को रिलीज होगा। निर्माता फिल्म को लेकर लगातार कोई ना कोई जानकारी साझा कर रहे हैं। कुछ ही देर पहले मेगास्टार अमिताभ बच्चन का अश्वत्थामा अवतार वाला एक नया पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। फिल्म के इस पोस्टर में अमिताभ बच्चन अपने हाथ में अस्त्र को थामे और माथे पर एक दिव्य मणि पहने हुए दिलचस्प अवतार में नजर आ रहे हैं।

ऐसा लग रहा है कि वह किसी युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। वह युद्ध के मैदान के बीच में खड़े दिखाई दे रहे हैं, उनके आस-पास कुछ लोग जमीन पर पड़े हुए हैं, उनके पीछे कोई बड़ा वाहन भी दिखाई दे रहा है। पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा, इंतजार जल्द ही खत्म होगा, फिल्म का ट्रेलर तीन दिनों में रिलीज होने वाला है। 10 जून को रिलीज होगा।



श्रावण का राशिफल

मेघ - चू,चे,चो,ला,लि,तू,ले,लो,अ

आप आपको आत्मविश्वास से साथ दिन की शुरुआत करने की जरूरत है आप एक से अधिक प्रोजेक्ट में शामिल होंगे और समय की कमी भी महसूस कर सकते हैं। विवाह स्थिति में सुधार होना तब है और आपको आप का एक अतिरिक्त रास्ता भी मिल सकता है। यदि आप परीक्षा या प्रतिस्पर्धा के माध्यम से अपनी स्थिति को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने मन को एकाग्र रखें प्रत्येक बिंदु पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपने जीवनसाथी का पूरा साथ मिलेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। व्यायाम करते रहें स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

वृषभ - इ,उ,ए,ओ,वा,पि,सु,वे,वो

आज कारोबार की शुरुआत कुछ धीमी रहेगी आपको अपने क्रोध पर संयम बरतने की आवश्यकता है, वरना व्यर्थ विवाद में फंस सकते हैं। तोपहर के बाद धन का आगमन होगा। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। संतान की शिक्षा पर ध्यान रहेगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता और पराक्रम में वृद्धि होगी। आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने के भी योग है प्रेमी जोड़ों को आसम में मिलने का सही समय है एक दूसरे को मन की बात कहने से पीछे नहीं हटना चाहिए।

मिथुन - क,कि,कृ,घ,ङ,छ,के,को,ह

आज का दिन आपकी पेशानी को दूर करेगा आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। बिजनेस के सिलसिले में आपकी यात्रा हो सकती है। साथ ही यात्रा सुखद रहेगी। संतान पक्ष से सुख की अनुभूति हो सकती है, जिससे आपके खुशियां में इजाफा होगा। ऑफिस में आपको जिम्मेदारता वाला काम मिलेगा, जिसे पूरा करने पर फायदा होगा। गणेश जी के मंत्र का जप करें कार्यसिद्धि होगी।

कर्क - म,ही,हु,हे,हा,डा,डी,डू,डे,डो

आज का दिन सफलता वाला रहेगा श्रेष्ठ परिणाम होंगे। परीक्षा या नौकरी की तलाश करने वाले या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक लोगों को सतत प्रयास करने जरूरत है। क्योंकि आने वाले समय में सफलता आपके साथ होगी। व्यवसाय विस्तार की योजना संभव है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। आप अपने समर्पण और फंडी मेहनत से दूसरों से आगे रहेंगे। पारिवारिक जीवन सामंजस्यपूर्ण होगा और पारिवारिक सदस्यों के मध्य एकता रहेगी। आप का परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

सिंह - म,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे

आज आप को कड़ी मेहनत करने की जरूरत है और इसके कारण आप अधिक तनाव में रहेंगे और बेचैन होंगे। बेरोजगारी दूर होगी। कोई बड़ा काम होगा। भेंट व उपहार की प्राप्ति होगी। यात्रा लाभदायक रहेगी। आपके छोटे भाई या बहन का समर्थन आप को आत्मविश्वास देगा। अतिरिक्त काम में किसी की मदद मिल सकती है। पुराने कुछ मामलों में अनबन खत्म हो सकती है। दूसरों की समस्या को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

कन्या - टो,प,पी,पू,पण,ठ,पे,पो

आज एकाएक आपको अचानक धन लाभ होगा। ऑफिस के कुछ सहकर्मी आपके काम में सपोर्ट करेंगे, जिससे आपका काम जल्दी पूरा हो जायेगा। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी, जो आगे आने वाले दिनों में आपकी मदद करेगा। आपके कर्तव्य हूए काम आसानी से पूरे होंगे। नौकरी या बिजनेस में आप जो भी काम हाथ में लेंगे, उसमें आपको पूरा सफलता मिलेगी। अपनी सामर्थ्य अनुसार मंदिर में दान करें।

तुला - र,री,रू,रे,रो,ता,ति,तू,ते

आप को सामाजिक तौर पर फायदा होगा राजनीति क्षेत्र में जमीन तलाश कर सकते हैं जीवन में कुछ बेहतरीन अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जिनका उपयोग आज अपने लाभ के लिए कर सकते हैं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने वाली महत्वपूर्ण सलाह पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि आज उससे अव्यक्त लाभ अर्जित कर सकते हैं। विचारों का आदान-प्रदान भी आपको बहुत लाभ देना सकता है। आपको अपने पिता के सुझाव का स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि यह आपके लिए कुछ नए निवेश मार्ग खोलने में मदद कर सकते हैं। परिवार की महिला का स्वास्थ्य आप को चिंता में डाल सकता है।

वृश्चिक - तो,न,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू

आज किसी पर भी आप को भरोसा नहीं करना चाहिए पारिवारिक यातावरण सुखद रहेगा। प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग व मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अपने आत्मविश्वास पर आप को आगे बढ़ना चाहिए। उद्योग के मार्ग प्रशस्त होंगे। व्यर्थ की बातों पर ध्यान न दें। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। गाय को गुड खिलाए और चिटियां शकर डालें

धनु - ये,यो,म,मी,मू,घा,फा,बा,भे

आज सुबह धार्मिक प्रार्थना का अवलोकन करना चाहिए विचारों में सात्विकता रहेगी मित्रों के साथ समय बितेगा, जिससे घर में खुशियों का माहौल बन जायेगा। आप बच्चों को कुछ उपहार जरूर दें बच्चे पढ़ाई में मेहनत करते रहेंगे टीचर्स भी सहायता करेंगे। जिससे बच्चों का रुझान पढ़ाई में बढ़ेगा। आप कोई नया काम करने की सोचेंगे। शिवजी के समुख तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें।

मकर - भो,ज,जी,खि,खू,खे,खो,ग,गि

आप अपने अलग अलग व्यापार का एक में विलय कर सकते। कठिन समय है, कार्य स्थल पर बार-बार परिवर्तन आपको भ्रमित कर सकता है। प्रेम संबंधों के लिए यह एक अच्छा समय है। आप का परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का योग बनेगा विवाहित सम्बन्ध में तनाव हो सकता है परंतु आप का मन और संयम तनाव का अंत सुखद बना देगा बच्चे आपको व्यस्त और खुश रखेंगे। स्वास्थ्य मजबूत रहेगा। शाम के समय में मन भी प्रफुल्लित रहेगा।

कुम्भ - गु,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,द

आज सभी ओर से सुखी का वातावरण रहेगा पारिवारिक जीवन में संतुष्टि रहेगी एवं आपसे सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा। जीवन की सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आपको अपने जीवनसाथी से पूरा सहयोग मिलेगा। छोटी-मोटी नौकरी-शौक को नजरअंदाज करना चाहिए दूसरों के काम में दखल न दें। झगड़ों से दूर रहें। विवाद को बढ़ावा न दें। आज आप व्यर्थ की बातों पर ध्यान न दें। आप के प्रयास धन की किड़त को दूर करेंगे नौकरी की समस्या हल होगी।

मीन - दी,दू,थ,झ,झ,दे,दो,झ,झी

आज किसी मित्र के यहा हवन का आयोजन बन सकता है आप की व्यस्तता भी रहेगी फिर भी आपका दिन खुशनुमा रहेगा। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। ऑफिस में आपके काम को लेकर सीनियर्स आपकी तारीफ कर सकते हैं। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। साथ ही कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। नंदी को चावल का भूसा खिलाए आर्थिक संकट दूर होगा

सोमवार का पंचांग

दिनांक : 10 जून 2024, सोमवार

विक्रम संवत् : 2081

मास : ज्येष्ठ, शुक्ल पक्ष

तिथि : चतुर्थी सायं 04:17 तक

नक्षत्र : पुष्य रात्रि 09:40 तक

योग : ध्रुव सायं 04:47 तक

करण : खिदि सायं 04:17 तक

चन्द्रराशि : कर्क

सूर्योदय : 05:41, सूर्यास्त 06:50 (हैदराबाद)

सूर्योदय : 05:53, सूर्यास्त 06:45 (बंगलौर)

सूर्योदय : 05:44, सूर्यास्त 06:39 (तिरुपति)

सूर्योदय : 05:34, सूर्यास्त 06:39 (विजयवाड़ा)

शुभ चोपडिया

अमृत : 06:00 से 07:30

शुभ : 09:00 से 10:30

चल : 01:30 से 03:00

लाभ : 03:00 से 04:30

अमृत : 04:30 से 06:00

राहुकाल : प्रातः 07:30 से 09:00

दिशाशूल : पूर्व दिशा

उपाय : वही धनिया खाकर यात्रा का अंशु करें

दिन विशेष : विनायक चतुर्थी व्रत, भद्रा सायं 04:16 तक, गण्डमूल रात्रि 09:41 से

पं.चिदम्बर मिश्र (टिड्डू महाराज)

हमारे यहाँ पाण्डित्य पूर्ण यज्ञ अनुष्ठान,

भागवत कथा एवं मूल पारायण,

वास्तुशास्त्र, गृहप्रवेश, शतघंटी, विवाह,

कुंडली मिलान, नवग्रह शास्त्रि, ज्योतिष

सम्बन्धी शंका समाधान किए जाते हैं

फ़क़ड़ का मन्दिर, रिकारवंग,

हैदराबाद, (तेलंगाना)

9246159232, 9866165126

chidamber011@gmail.com

भाजपा सरकार में प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर करोड़ों का घोटाला : गर्ग

चंडीगढ़, 09 जून (एजेंसियां)।

हरियाणा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने आरोप लगाया कि राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के कार्यकाल में प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया गया है। श्री गर्ग ने कहा कि इसके बावजूद हरियाणा के मंत्री डॉ. बनवारी लाल का यह कहना है कि सरकार प्रॉपर्टी आईडी व फैमिली आईडी को ऑफलाइन कर सकती है।

उन्होंने रविवार को जारी बयान में कहा कि प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। सरकार के मंत्री के रिश्तेदार की जयपुर की अय्याशी कंपनी को प्रॉपर्टी आईडी का टेंडर पहले 18 करोड़ 11 लाख रुपए का दिया गया जबकि प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे लगभग 95 प्रतिशत से ज्यादा गलत दिखाई गई। जिसका मकान एक मंजिला था उसे तीन मंजिला दिखा दिया,



100 गज का मकान था उसका साइज बड़ा करके दिखा दिया। जनता लगभग दो सालों से अपनी प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए नगर निगम में पैसे दे देकर प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए धकेल रही है जबकि प्रॉपर्टी आईडी बनाने वाली कंपनी को सर्वे के नाम पर 58 करोड़ों रुपए का भुगतान सरकार ने कर दिया।

उन्होंने कहा कि हिसार व सोनीपत आदि नगर निगम ने प्रॉपर्टी आईडी की सर्वे गलत होने पर ठेकेदार को भुगतान नहीं करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था मगर सरकार ने किसी की न सुनते हुए अपनी चहेती कंपनी को करोड़ों रुपए का भुगतान करके बहुत बड़ा घोटाला किया। सरकार को प्रॉपर्टी आईडी कि गलत सर्वे करने वाली कंपनी पर प्राथमिकी दर्ज करके पैसे की ब्याज सहित वसूली करनी चाहिए।

श्री गर्ग ने कहा कि सरकार जो प्रॉपर्टी आईडी व पोर्टल-पोर्टल जनता के साथ खेल रही है, उसे तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। सरकार ने जो लाखों गरीबों को राशन कार्ड काटे हैं और बुजुर्गों की पेंशन काटी है उसे तुरंत प्रभाव से बनाया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही पहले कलम से प्रॉपर्टी आईडी व पोर्टल को खत्म किया जाएगा।

पुलिस अधिकारी के आवास से दिन-दहाड़े कार चोरी



चित्तौड़गढ़, 09 जून (एजेंसियां)।

राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर में वाहन चोरों के हासले इतने बुलंद हैं कि दिनदहाड़े पुलिस अधिकारी के आवास में होने के बावजूद बाहर खड़ी उनके मित्र की कार चुरा ले गए।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश सांखला ने बताया कि शनिवार दोपहर दो बजे लगभग उनके भीलवाड़ा निवासी मित्र मुकेश सिंह चौहान उनसे मिलने उनके कबीर कालोनी स्थित किराए के आवास पर आए थे, दोनों अंदर ही बैठे थे और बाहर से दो बाइक सवार उनकी कार चुरा ले गए। घटना का पता तब लगा जब श्री चौहान वापस जाने के लिए बाहर आए। तत्काल कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चला कि कार की अंतिम लोकेशन कपासन मार्ग पर नरपट की खेड़ी गांव की मिली है। रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है और पुलिस चोरों व कार की तलाश में लगी है। घटना को चौबीस घंटे बीतने के बावजूद पुलिस अभी तक कार का पता नहीं लगा सकी है।

प्रदेश में गहराया बिजली-पेयजल संकट, सरकार सोई है

चंडीगढ़/सिरसा, 09 जून (एजेंसियां)।

हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस (इंडिया समूह) की नवनिर्वाचित सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि प्रदेश में एक तरफ गर्मी है वहीं पेयजल संकट जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहा है और प्रदेश सरकार सोई हुई है। सुश्री सैलजा ने रविवार को मोडिया को जारी बयान में कहा कि प्रदेश भर में बिजली, पानी को लेकर धरना प्रदर्शन और रास्ते जाम हो रहे हैं पर सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। जो सरकार जनता को मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध न करवा सके उसे एक पल भी सत्ता में रहने का हक नहीं है, झूठे वायदे और जनता का भला होने वाला नहीं है।

उन्होंने कहा कि एक ओर प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि उसके पास पर्याप्त बिजली है तो दूसरी ओर प्रदेश भर में बिजली संकट गहराया हुआ है, रातभर अघोषित कट लग रहे हैं, गर्मी से बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं। लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा, जलघरों की डिगियां सूख रही हैं। भीषण गर्मी में लोग जान बचाने के लिए 600 से 800 रुपये प्रति टैंकर पानी का खरीदकर गुजारा कर रहे हैं। जिस प्रदेश के लोग खरीदकर पानी पीने को



मजबूर हो जाए ऐसी सरकार को एक पल भी सत्ता में रहने का हक नहीं है।


सुश्री सैलजा ने कहा कि रोहतक के सुनारियां गांव में पानी और बिजली दूर की कौड़ी बन गई हैं। पिछले दस दिनों से गांव के नल सूखे पड़े हैं और बिजली के अवरोध ने जीवन को और भी कठिन बना दिया है। प्रदेश में तापमान 45 से 50 डिग्री के बीच रहा ऐसे में लोगों को बिजली-पानी संकट का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार को बयानबाजी छोड़कर जनता की मूलभूत जरूरतों खासकर बिजली व पानी का प्रबंध करने की ओर ध्यान देना चाहिए।

दो पक्षों में हुई मारपीट में युवक की मौत

भरतपुर, 09 जून (एजेंसियां)।

राजस्थान के धौलपुर सरमथुरा के मठ मल्लपुरा में दो पक्षों में हुई मारपीट में घायल युवक अंकुश की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार शाम को मठ मल्लपुरा गांव में दो पक्षों में मारपीट में युवक अंकुश घायल हो गया जिसकी ग्वालियर अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। रविवार सुबह मृतक के परिजन एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणों द्वारा थाना गेट के सामने शव को रखकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शकारियों की तरफ से मृतक के आश्रित को सरकारी नौकरी, 50 लाख मुआवजा, हथियार लाइसेंस, पुलिस सुरक्षा एवं आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा, उपखण्डाधिकारी राधेश्याम मीणा भारी संख्या में पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर मौजूद रहकर परिजनों एवं ग्रामीणों से समझाइश में जुटे। गौरतलब है कि पुलिस अधीक्षक श्री मेहरड़ा के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आठ पुलिस टीमों गठित की गई है। टीम ने आरोपियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी।

सीकर जिले में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए



जयपुर, 09 जून (एजेंसियां)।

राजस्थान के सीकर जिले में शनिवार देर रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार देर रात 11 बजकर 45 मिनट पर सीकर जिले में विभिन्न स्थानों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.9 दर्ज की गई। भूकंप के झटकों से लोग घरों से बाहर निकल आये। जिले के खाटूरग्राम, रिंगस, दांतारामगढ़ सहित कई क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस होने के समाचार मिले हैं। भूकंप से जान माल एवं अन्य किसी नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है।

सैनी ने महाराणा प्रताप की जयंती पर नमन किया



चंडीगढ़, 09 जून (एजेंसियां)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने रविवार को महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें नमन किया। श्री सैनी ने कहा कि चेतक पर चढ़ ज़िंसे, भाले से दुश्मन संचारे थे। मातृभूमि की खातिर जिसने जंगल में कई साल गुजारे थे। त्याग, साहस, वीरता, बलिदान, स्वाभिमान, समर्पण और देशभक्ति के प्रतीक वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप जी की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन।

घर में घुसकर युवक की निर्मम हत्या

बूंदी, 09 जून (एजेंसियां)।

जिले के दबलाना क्षेत्र में युवक की निर्मम हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या की घटना के बाद हड़कंप मच गया। युवक की हत्या उसके घर में घुसकर की, आरोपी ने युवक की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट उतार दिया। प्रथम दृष्टिया प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या की जाने की जानकारी पुलिस को लगी है।

पुलिस को मृतक की पत्नी पर भी शक है जिससे पूछताछ की जा रही है। घटना की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा, हिंडोली डीएसपी घनश्याम मीणा, थाना अधिकारी मनोज सिकवार मय जांसे के मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। मौके पर कोटा से एफएसएल व एमओबी टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं। दबलाना पुलिस ने हत्या का मामला

प्रेम प्रसंग का मामला जांच में जुटी पुलिस

दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच पड़ताल पूरी करने के बाद शव का हिंडोली अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया और परिजनों को सपोर्ट कर दिया गया है। एसपी हनुमान प्रसाद मीना ने बताया की देर रात्रि के बीच दबलाना थाना क्षेत्र के मेंडी ग्राम पंचायत के नरसिंहपुर गांव में राजू उर्फ राजेंद्र गुर्जर (35) पुत्र श्योजी गुर्जर की कुल्हाड़ी से गले पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी पुलिस को सुबह लगी। इस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर क्राइम सीन को देखा और घटना से जुड़े साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हिंडोली अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जिसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले में अनुसंधान किया जा रहा है।

राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष को जान से मारने की मिली धमकी

पाकिस्तानी नंबर से किया था कॉल

जयपुर, 09 जून (एजेंसियां)।

राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत को पाकिस्तान के नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने कहा है कि तेरा भी हाल सुखदेव सिंह जैसा ही किया जाएगा। फोन कॉल आने के बाद शेखावत ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान नंबर से फोन पर धमकी देने वाले ने शेखावत से कहा है कि अगर तू सुखदेव सिंह गोगामेडी की आवाज उठाना बंद नहीं करेगा तो किसी दिन तुझे भी निशाने पर ले लिया जाएगा। धमकी मिलने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवसिंह शेखावत ने तुरंत प्रभाव से पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस दल ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जिसमें पता चला है कि यह नंबर पाकिस्तान का है।

नहर में नहाते समय 10 साल के बच्चे की डूबने से मौत

राहगीरों ने किशोर को बचाया



यमुनानगर, 09 जून (एजेंसियां)। पश्चिमी यमुना नहर में हमीदा हेड के पास नहर में नहाते हुए आज दोपहर 10 साल का आजाद सिंह व 14 साल का का मोहित पानी में डूब गए। दोनों नहाने के लिए नहर पर पहुंचे थे। वहां से जा रहे राहगीरों ने नहर में कूद कर मोहित को तो बचा लिया लेकिन आजाद पानी में डूब गया। बाद में गोताखोरों ने उसका नहर में तलाश किया। दो घंटे बाद आजाद का शव पानी से मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजाद के माता-पिता मूल रूप से सहानुभूति के पास मोदीपुर गांव के रहने वाले हैं। वह यमुनानगर में पुराना हमीदा की खड्डा कॉलोनी में किराये पर रहते हैं और दोनों प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करते हैं।

खड्डा कॉलोनी निवासी 11 वर्षीय मोहित अपने पड़ोस में रहने वाले दोस्त 10 वर्षीय आजाद के साथ आज दोपहर को हमीदा हेड पर पहुंचा। यहां पर वह हेड से कुछ ही दूरी पर नहर में नहाने लगे। इसी दौरान नहाते हुए दोनों गहराई में चले गए। उन्हें डूबता देख वहां से जा रहे राहगीरों ने मोहित को बचा लिया। जब उसे बाहर निकाला गया तो वह बेहोश हो गया था। उसे तुरंत हमीदा चौकी पुलिस की पीसीआर में अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसकी हालत ठीक है। परंतु आजाद पानी में डूब गया इसलिए उसे बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने गोताखोरों को मौके पर बुलाया। दो घंटे बाद आजाद का शव निकाल लिया गया।

आजाद के नहर में डूबने का पता लगते ही उसके परिजन दौड़ पड़े। वह रोते बिलबले रहे। हमीदा चौकी इंचार्ज गुरदयाल भी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। गोताखोरों को बुलाया गया। गोताखोर राजीव अपनी टीम के साथ लगे रहे। काफी मशकत के बाद आजाद का शव मिला। वहीं परिजन बार-बार रोते हुए पुलिस से अपने बच्चे को बाहर निकालने की गुहार लगा रहे थे।

बाइक सवार को ट्रक ने मारी टक्कर, मौके पर ही मौत

छह महीने पहले हुई थी शादी

झज्जर, 09 जून (एजेंसियां)।

बहन के घर जा रहे भाई की नौगांव मातनहेल मार्ग पर रविवार सुबह लगभग सात बजे ट्रक की टक्कर लगने से मौत हो गई। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। चालक ट्रक को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने सूचना मिलने पर घटनास्थल का मौका मुआयना किया और एफएसएल टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया।

एफएसएल टीम ने घटना स्थल से जरूरी साक्षी एकत्रित किए हैं। स्थानीय पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल झज्जर भिजवाया। जहां शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी। वह अपने पीछे तीन बहन व एक भाई को छोड़ गए हैं। पुलिस को दी गई शिकायत



में रविन्द्र पुत्र रामकुमार निवासी सासरोली ने बताया कि वह और उसका सबसे छोटा भाई प्रशांत रविवार अलसुबह अपने किसी काम से हमारी बहन कविता के पास अलग-अलग मोटरसाइकिल लेकर अपने गांव सासरोली से अपनी बहन के पास मातनहेल जा रहे थे। उसका भाई प्रशांत मोटरसाइकिल पर चल रहा था। जब वह गांव नौगांव से रुडियावास के बीच मातनहेल झाली रोड पर पातुवास माईनर के पास पहुंचे तो एक ट्रक

चालक मातनहेल की तरफ से तेज रफ्तार से ट्रक चलाता हुआ आया और उसके भाई प्रशांत की बाइक को सीधी टक्कर मार दी। इससे उसका भाई रोड पर जा गिरा। जब उसने अपनी मोटरसाइकिल को साइड में खड़ा करके अपने भाई के पास जाकर देखा तो उसके भाई प्रशांत की ट्रक द्वारा टक्कर लगने के कारण मौके पर ही मौत हो चुकी थी और ट्रक ड्राइवर ट्रक को मौके पर ही छोड़कर भाग गया।

भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह फिर मोदी सरकार में मंत्री

बेगूसराय को इस बार भी ताकत

पटना (एजेंसियां)।

भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और लगातार दो बार से बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह फिर से टीम मोदी में शामिल हो रही है। एनडीए सरकार में वह फिर से केंद्रीय मंत्री बनने जा रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है इसके सिवा कोई संकल्प ही नहीं है। एनडीए था, एनडीए है और एनडीए आगे भी रहेगा। अपने बयानों से हमेशा चर्चा में रहने वाले गिरिराज सिंह ने इस बार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अवधेश कुमार राय को 81480 हजार वोट से हरा दिया।

एक वक्त था जब वामपंथियों का गढ़ कहे जाने वाले बेगूसराय को मिनी मॉस्को कहा जाता था। 2004 में लोकसभा क्षेत्र के रूप में बेगूसराय अस्तित्व में आया। पहली बार जनता दल यू की टिकट पर डॉ. मोनाजिर हसन सांसद



बने। इसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर डॉ. भोला सिंह सांसद बने। उनके जाने के बाद 2019 में गिरिराज सिंह को टिकट मिला। उनके सामने थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के प्रत्याशी कन्हैया कुमार। चुनाव परिणाम आया तो गिरिराज सिंह

जीत गए। इस बार भी चुनावी मैदान में गिरिराज सिंह का मुकामला भाकपा प्रत्याशी अवधेश राय से हुआ और भारी मतों से गिरिराज सिंह जीत गए।

बिहार में लगातार हिन्दुत्व का झंडा बुलंद करने वाले गिरिराज सिंह को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का करीबी माना जाता है। साथ ही वह बिहार में अगड़ी जाति का चेहरा माने जाते हैं। शायद इसलिए भी गिरिराज सिंह को फिर से मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा रहा है।

गिरिराज सिंह मूल रूप से लखीसराय जिले के रहने वाले हैं। 8 सितम्बर 1952 को बड़हिया में उनका हुआ था। पिता रामावतार सिंह किसान थे। मां तारा देवी गृहणी थीं। गिरिराज सिंह ने बेगूसराय और पटना में अपनी पढ़ाई पूरी की।

पढ़ाई के बाद वह बेगूसराय आए। यहां वह पंपसेट की एजेंसी चलाते थे। दिग्गज नेता स्व. कैलाशपति मिश्र से प्रेरित होकर गिरिराज सिंह ने भाजपा में शामिल हुए। 2007 में वह पहली बार मंत्री बने। इसके बाद 2014 में पहली केंद्रीय राज्य मंत्री बने।

इसी साल पद्मश्री से सम्मानित पंडित रामकुमार मल्लिक का निधन

पटना (एजेंसियां)।

ध्रुपद संगीत के मशहूर कलाकर पंडित रामकुमार मल्लिक का निधन हो गया। वह 73 साल के थे। दरभंगा के बहेड़ी प्रखंड के आमता गांव स्थित अपने पैतृक घर में शनिवार देर रात हृदय गति रुकने से उन्होंने दम तोड़ दिया। इसी साल उन्होंने पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमता घराना के ध्रुपद संगीत के क्षेत्र में उन्होंने महारथ हासिल कर रखी थी। वह पंडित विदुर मल्लिक के पुत्र व शिष्य थे।

बताया जा रहा है कि ध्रुपद संगीत में पंडित रामकुमार मल्लिक ने देश-विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी गायकी का लोहा मनवाया। कई सम्मानों से अलंकृत थे। वर्ष 2024 में इनको पद्मश्री अलंकरण से नवाजा गया। वह अपने पीछे दो पुत्री रूबी, रिंकी, चार पुत्र संतोष, समित, साहित्य एवं संगीत मल्लिक को छोड़ गए। पंडितजी ने अपने सभी पुत्रों और शिष्य को ध्रुपद गायकी के लिए तैयार किया। उनके निधन के बाद दरभंगा ही नहीं पूरे मिथिलांचल में शोक की लहर है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब पांच सौ वर्ष से निरंतर चली आ रही ध्रुपद परंपरा की 12वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ध्रुपद ने इनका प्रशिक्षण बचपन से ही अपने गुरु और पिता ध्रुपद सम्राट पं. विदुर मल्लिक के मार्गदर्शन में शुरू हुआ। दादा पंडित सुखदेव मल्लिक से भी संगीत सीखने का अवसर मिला। इनकी गायकी में गौहार वाणी, खंडार वाणी कस सुमधुर प्रयोग स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। इनके जाने से दरभंगा घराना ही नहीं बल्कि संगीत जगत को अपूरणीय क्षति हुई है।

लोगों ने ट्रेन को धक्का देकर जलने से बचाया!

आग लगे हिस्से से अलग करने के बाद धकेल कर किया दूर

पटना (एजेंसियां)।

1971 के दशक में एक फिल्म आई थी हाथी भरे साथी, जिसमें मुख्य नायक राजेश खन्ना थे। यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर सामने आई थी। उस फिल्म में एक गाना था- चल चल चल मेरे साथी, मेरे हाथी, चल ले चल खतरा खींच के... जो काफी हिट हुआ था। कुछ ऐसा ही नजारा बिहार में देखने को मिला, जहां रेलगाड़ी को कई लोग धक्का देकर दूर ले जा रहे हैं। हालांकि यह वीडियो खतरा के लिए नहीं बल्कि लोगों के सुझबुझ और सहस्र को प्रदर्शित करता है, जिसके कारण रेलवे की संपत्ति जलकर राख होने से बच गई। यह वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है।

दरअसल यह नजारा किउल जंक्शन का है, जहां लोग डीएमयू को खींचते हुए नजर आ रहे हैं। 6 जून को पटना से जसीडीहा जा रहे डीएमयू में आग लग गई, जिसमें कई बोगी जलकर राख हो गये। आननफानन में सभी यात्री उस ट्रेन से उतरकर अपनी अपनी जान बचाए। आग लगने के बाद यात्री और वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने शेष बोगी को उस आग से अलग कर धक्का मारते हुए दूर ले गये ताकि अन्य बोगियों को आग की चपेट से बचाया जा सके। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो को लोग खूब शेयर कर रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि एक मेमू ट्रेन में आग लगने के बाद यात्री, अपनी जान पर खेलकर, ट्रेन को धकेलते हुए उसे पटरी पर दौड़ा हुए आग लगे कोच से अलग कर रहे हैं। ट्रेन में आग लगने से किसी तरह के जान माल की क्षति नहीं हुई थी। इसमें एक बोगी पूरी तरह से और दूसरी बोगी आंशिक रूप से जली है। 13028 डाउन पटना-जसीडीहा मेमू ट्रेन किउल जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर पांच पर जैसे ही आकर रुकी, ट्रेन के इंजन से 6-7 बोगी पीछे वाली बोगी से अचानक धुआं उठने लगा।

मजाक का विरोध करना दिव्यांग बुजुर्ग को पड़ा भारी उसी की लाठी से पीट-पीट कर बदमाशों ने ली जान



पटना (एजेंसियां)।

बिहार के कैम्पू में मजाक का विरोध करना एक बुजुर्ग व्यक्ति को भारी पड़ गया। जहां मजाक उड़ाने वाले बदमाशों ने उसी की लाठी से पीट-पीट कर दिव्यांग बुजुर्ग को जान से मार डाला। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भुआ सदर अस्पताल भेज दिया। उसके बाद आगे की कार्रवाई में जुट गई। यह मामला नुआंव थाना क्षेत्र के बासनपुर गांव का है।

जानकारी के मुताबिक, बासनपुर गांव में दोनों पैर से दिव्यांग एक बुजुर्ग व्यक्ति को मारपीट कर बदमाश लड़कों ने हत्या कर दी। मृत व्यक्ति की पहचान नुआंव थाना क्षेत्र के बासनपुर गांव निवासी दिव्यांग पदारथ यादव के बेटे धर्मदेव यादव (70) के रूप में हुई है। सदर

अस्पताल पहुंचे मृतक के बेटे सुनील यादव ने बताया कि गांव के कुछ लड़के धर्मदेव यादव को हमेशा चिढ़ाते रहते थे। इसका वह हमेशा ही विरोध करते थे। लेकिन बदमाश युवक अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे थे।

उन्होंने बताया कि कल रात को भी यही हुआ, जब गांव के युवकों द्वारा उनका मजाक उड़ाया जा रहा था। उस दौरान उन्होंने इसका विरोध किया। उसके बाद बदमाश लड़कों में रमेश यादव, उसका बेटा और कन्हैया यादव और बबू यादव द्वारा दिव्यांग बुजुर्ग की लाठी छीन कर उसे मारपीट कर मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।

वहीं, पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। फिर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले गई। जहां सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इस मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

पूर्व पंचायत समिति सदस्य के घर 50 लाख से ज्यादा की डकैती

बदमाशों ने घर के मालिक को गोली भी मारी



सीतामढ़ी (एजेंसियां)।

बिहार के सीतामढ़ी में बीती रात डकैतों ने एक पूर्व पंचायत समिति सदस्य के घर जमकर उत्पाद मचाया। इतना ही नहीं भीषण डकैती के साथ अपराधियों ने घर के मालिक को गोली भी मार दी। घटना जिले के सहियारा थाना क्षेत्र के सिंगरहिया गांव की है। जहां बीती देर रात हथियारबंद डकैतों ने वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि घटना का विरोध करने पर घर के एक सदस्य को गोली भी मारी गई है। हालांकि, गोली लगने की बात संदेहास्पद है। पुलिस को मौके से खोखा भी मिला है, जिसके आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, पूर्व पंचायत समिति सदस्य अजय सिंह उर्फ बुलेट सिंह अपने घर पर परिवार के सभी सदस्यों के साथ प्रतिदिन की तरह खाना खाने के बाद सोए हुए थे। इसी दौरान करीब 2.45 बजे 20 से 25 डकैत हथियार लैस होकर घर की छत के रास्ते अंदर घुसे। फिर हथियार के बल पर सभी को बंधक बना लिया। परिवार के कुल आठ-10 सदस्य मौजूद थे। बताया जा रहा है कि पारिवारिक सभी लोग कहीं घूमने जाने के तैयारी में थे। इसी दौरान ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। पूर्व पंचायत समिति के सदस्य

अजय सिंह के पिता उमेश प्रसाद सिंह ने बताया कि करीब 3.30 बजे इसकी सूचना बथनाहा थाना पुलिस को दी थी। उन्होंने बताया कि घर में रखे करीब 50 लाख रुपये के सोने-चांदी के गहने और 25 हजार रुपये नकदी की डकैती हुई है।

घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं, घटना के बाद से इलाके में दहशत फैली हुई है। इधर, डीएसपी सदर रामकृष्ण ने बताया कि पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। डकैतों को लगभग पहचान लिया गया है। जल्द ही डकैत हमारी गिरफ्त में होंगे।

पुलिस अधिकारी के बेटे की गोली मारकर हत्या

पटना (एजेंसियां)।

पटना में पुलिस अधिकारी के बेटे की हत्या की गोली मारकर हत्या कर दी। मामला शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र के एजी कॉलोनी की है। मृतक की पहचान पटेल नगर निवासी श्याम रंजन सिंह के पुत्र आर्यन राज (14) के रूप में की गई है।

घटना के संबंध में पुलिस का कहना है कि एक युवक की गोली मारकर हत्या करने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने पर पुलिस बताया गये जगह पर पहुंची तो कमरे में बाहर से ताला लगा हुआ था। ताला तोड़ने पर कमरे के अंदर नाबालिग युवक का शव बरामद हुआ।

शव को पोस्टमार्टम के लिए आईजीआईएमएस् भेज दिया गया। मामले की जांच की जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि देर रात उस कमरे में शराब पार्टी मनाई गई, जिसमें कई लोग शामिल थे। लोगों का कहना है कि पुलिस ने घटनास्थल से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद किये हैं। लोगों का कहना है कि मृतक के पिता एक पुलिस अधिकारी हैं।

पटना में दिनदहाड़े भाई ने भाई को मार डाला



पटना (एजेंसियां)।

पटना में शनिवार को दिनदहाड़े एक भाई ने दूसरे भाई को गोलियों से भून डाला। आननफानन में घायल स्थिति में युवक को इलाज के लिए पटना के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में सनसनी का मंच गई। घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुआ हाल है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने घटनास्थल से सीसीटीवी कैमरा और साक्ष्य संकलन किया।

इधर, घटना की पुष्टि करते हुए फुलवारी शरीफ पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी विक्रम सिहाग ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 12:10 बजे के आसपास यह सूचना मिली कि रानीपुर गांव में दो भाइयों के बीच आपसी वर्चस्व और जमीनी विवाद को लेकर लड़ाई झगड़ा हो रही है। उन्होंने

बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची। इस बीच एक भाई ने दूसरे भाई पर गोली चला दी। उन्होंने बताया कि एक भाई ने दूसरे भाई पर दो गोली चलाई। दो गोली उनके सीने में लगी। इलाज के लिए पटना एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान रानीपुर निवासी मंगर पासवान के रूप में हुई है। पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि दो भाई सुनील पासवान और मंगर पासवान के बीच जमीन का विवाद चल रहा था। इसी क्रम में मंगलवार को सुनील पासवान अपने परिवार के बेटा सहित अमन पासवान और सनी पासवान के साथ पहुंचे और मंगर पासवान पर गोली चला दी। उन्होंने बताया कि घटना के बाद पुलिस आरोपितों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। घटनास्थल से पुलिस ने गोली के खोखे बरामद किए हैं।

अपराधियों ने दिनदहाड़े पूर्व पार्षद के बेटे को मारी दो गोलियां, नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती

गया (एजेंसियां)।

बिहार के गया में दिनदहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने गया शहर के बिसार तालाब के पास गया नगर निगम के पूर्व पार्षद के बेटे को दो गोलियां मारकर घायल कर दिया। उसके बाद नाजुक हालत में युवक को इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया। वहीं, गोलीबारी की वारदात के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई।

जानकारी के मुताबिक, गया शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित बिसार तालाब के पास शुक्रवार को बाइक सवार तीन अपराधी एक युवक पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। गोलीबारी में युवक को दो गोली लगीं और वह जमीन पर गिर पड़ा। गोलीबारी की घटना के कारण आसपास के लोग अपनी-अपनी दुकानें बंद कर भागने लगे। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइंस



थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी युवक को इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। जहां जख्मी युवक का इलाज किया जा रहा है। वहीं, जख्मी युवक की पहचान गया नगर निगम वार्ड संख्या 36 के पूर्व पार्षद राबिया खातून के बेटे परवेज आलम के रूप में हुई। घायल युवक शहर के समीरतक्या मोहल्ले का रहने वाला है।

जानकारी के अनुसार, पूर्व पार्षद के बेटा परवेज आलम आपराधिक मामलों में गया जेल में बंद था। छह दिन पहले ही जेल से छूटकर घर आया था। शुक्रवार को सुबह 11 बजे गया कोर्ट जाने

के लिए बाइक से निकला था। जैसे ही शहर के बिसार तालाब के पास स्थित सुधा डेयरी के पहुंचा। वहां पहले से मौजूद बाइक सवार

तीन अपराधियों ने उसे गोली मार दी। दो गोलियां लगते ही युवक जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद अपराधी उसे मृत समझकर मौके से फरार हो गए। लोगों का कहना है कि आपसी दुश्मनी में घटना घटी है। वहीं, जख्मी युवक परवेज आलम 2020 में गया टाउन से एआईएमआईएम ओबेसी की पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में उसे 36 वोट मिले थे। घटना के बाद अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस सीसीटीवी कैमरों की फुटेज छानालेने में जुट गई है। जख्मी युवक पर भी कई आपराधिक मामले थाने में दर्ज हैं।

बिहार के कई जिलों में लू का यलो अलर्ट, 18 जिलों परा 40 पार

पटना (एजेंसियां)।

बिहार में फिर से गर्मी झुलसने लगी है। गर्म पछुआ हवा ने लोगों को परेशान कर दिया है। मौसम विभाग की मानें तो अगले तीन दिनों तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। पिछले 24 घंटे में पटना, गया, रोहतास समेत 18 जिले का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में राज्य के कई जिलों के तापमान में दो से चार डिग्री तक वृद्धि का पूर्वानुमान है। बिहार के दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम, उत्तर-मध्य, दक्षिण-पूर्व और दक्षिण-मध्य इलाके में गर्म और आर्द्र दिन रहने के आसार हैं। इन जिलों के लू का यलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग का मानना है कि शनिवार को बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग के तापमान में बढ़ोतरी होगी। दक्षिण पश्चिम भाग के अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच रहेंगे। जबकि न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री



के बीच बताई गई है। वहीं दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व के अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। बिहार के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटे में पटना में 41.9 डिग्री, गया 43.2 डिग्री, भालपुर, 40.8 डिग्री, डेहरी

43.8 डिग्री, शेखुपुरा 42.1 डिग्री, गोपालगंज में 40.1 डिग्री, जमुई में 40 डिग्री, बक्सर 43.4 डिग्री, भोजपुर में 43.1 डिग्री, वैशाली में 41.5, औरंगाबाद में 43.6 डिग्री, बांका में 42.2 डिग्री, नवादा में 42.7 डिग्री, राजगीर में 42.3, जीरादेई में 41.6 डिग्री, अरवल में 43.6 डिग्री, बिक्रमगंज में 43.2 डिग्री और मुंगेर में 41.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।

मौसम विभाग के अनुसार, 24 घंटे के दौरान राज्य के उत्तर भाग के एक दो जगह पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई। दिन का तापमान राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में 40 डिग्री से ऊपर या उसके आसपास रहा। शेष बिहार में 38 डिग्री से नीचे और उसके आसपास रहा। पूरे बिहार में नमी की मात्रा बनी हुई है।

सबसे कम अधिकतम तापमान अररिया में 32.8 डिग्री सेल्सियस और सबसे अधिक अधिकतम तापमान वैशाली में 41.1 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मानसून की उत्तरी सीमा आज भी उप हिमालय पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर पर आकर रुका हुआ है। कल जो पूरब पश्चिम टर्फ रखा पश्चिम बंगाल तक जा रही थी। वह आज कमजोर पड़ गया है। समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर बिहार के ऊपर एक चक्रवर्ती परिसंचरण बना हुआ है। इसके कारण अगले 24 से 48 घंटे के दौरान राज्य के उत्तरी भाग में हल्के स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है। उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर पूरे बिहार में उष्ण एवं उमस भरी गर्मी बनी रहेगी। अगले 48 घंटे के बाद गया, जहानाबाद, शेखपुरा नवादा एवं दक्षिण पश्चिम भाग के अलग-अलग इलाकों में लू की स्थिति संभव है तथा गर्मी से सतर्क रहें एवं सुरक्षित रहें जितना हो सके धूप से बचिए एवं पानी पीते रहिए।